



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 11—फरवरी 17, 2006 (माघ 22, 1927)

No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 11—FEBRUARY 17, 2006 (MAGHA 22, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2006

सं. 62, दिनांक 4 जनवरी 2006.—राष्ट्रपति, इस प्रभाग में उप वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यरत भा.र.ले.से. (1992) के श्री के.वी.आर. मूर्ति को दिनांक 15 दिसम्बर 2005 से 18 अप्रैल 2007 तक अथवा अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

दिलीप कुमार पाण्डेय  
निदेशक (वित्त/स्थापना)

नेवी ब्रांच

एकीकृत मुख्यालय (नौसेना)

सं. 63, दिनांक 4 जनवरी 2006.—राष्ट्रपति, सहर्ष श्री प्रदीप शर्मा, निजी सचिव को दिनांक 13 अक्टूबर 2005 से 31 दिसम्बर 2005 तक अथवा नियमित चयन सूची से उम्मीदवारों की उपलब्धता तक अथवा उक्त व्यक्ति से सेवानिवृत्त होने के समय में से जो भी पहले हो, सशस्त्र सेना

मुख्यालय की आशुलिपि सेवा में अस्थायी आधार पर प्रधान निजी सचिव (वर्ग 'क' वेतनमान रु. 10,000—15,200/-) नियुक्त करते हैं।

उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति पूर्णतः अस्थाई आधार पर होगी तथा प्रशासनिक कारणों से बिना पूर्व सूचना दिए समाप्त की जा सकती है। अधिकारी का उपर्युक्त तदर्थ आधार पर मिली पदोन्नति पर स्थायी नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं होगा। उनकी प्रधान निजी सचिव की अस्थाई नियुक्ति की अवधि को वरिष्ठता के लिए नहीं गिना जाएगा।

शंकर सिंह  
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

सं. 64, दिनांक 4 जनवरी 2006.—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में शामिल किए गए श्री एस. पी. कपूर, आशुलिपिक समूह-ग की नियुक्ति की अवधि को दिनांक 1 अक्टूबर 2005 से 31 दिसम्बर 2005 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो इस प्रभाग में बढ़ाए जाने की स्वीकृति देते हैं।

दिलीप कुमार पाण्डेय  
निदेशक (वित्त/स्थापना)

सं. 65, दिनांक 4 जनवरी 2006.--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित व्यक्ति सहायकों की निजी सचिव (वर्ग ख राजपत्रित वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/-) के रूप में अस्थाई नियुक्ति की अवधि को दिनांक 1 जुलाई 2005 से आगे 31 दिसम्बर 2005 तक अथवा चयन सूची से नियमित व्यक्तियों के उपलब्ध होने अथवा उक्त व्यक्तियों के सेवानिवृत्त होने के समय में से जो भी पहले हो, सशस्त्र सेना मुख्यालय की आशुलिपिक सेवा में, अस्थाई आधार पर बढ़ाते हैं।

श्री एस के अरोड़ा

श्रीमती मोहिनी अगरवाल

श्रीमती संतोष तनवर

श्रीमती चित्रा दत्ता

श्री विनय ग्रोवर

श्री जी एस जस्सल

श्रीमती सी के दिल्ली

श्रीमती मंजु साहनी

श्रीमती किरण कालरा

श्रीमती निर्मल

उपर्युक्त अधिकारियों की निजी सचिव के रूप में नियुक्ति सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2004 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के आधार पर है :--

- (क) ये नियुक्तियां पूर्णतः अस्थाई आधार पर होगी तथा प्रशासनिक कारणों से बिना सूचना दिए समाप्त की जा सकती हैं।
- (ख) उपर्युक्त पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उनका न तो कोई दावा होगा न ही उनकी अस्थाई नियुक्ति की अवधि को वरिष्ठता के लिए गिना जाएगा।

शंकर सिंह

उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

#### राष्ट्रीय कैडेट कोर

सं. 66, दिनांक 10 जनवरी 2006.--नीचे दिए गए कुलपतियों को राष्ट्रीय कैडेट कोर में अवैतनिक कर्नल का रैंक दिया जाता है और उन्हें उनके संबंधित विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में उनकी नियुक्ति की अवधि तक के लिए कर्नल कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है जैसा कि उनके नाम के सामने दर्शाया गया है :--

कुलपति का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	कुलपति के पद पर नियुक्ति की तारीख
1	2	3
डा. (श्रीमती) सरोजा प्रभाकरन, कुलपति	अविनाशिलिंगम विश्वविद्यालय कोयम्बटूर, तमिलनाडु	14 सितम्बर 2004
डा. जगमोहन सिंह कुलपति	डा. वाई एस परमार हार्टिकल्चर एंड फार्सेट विश्वविद्यालय नौनी, सोलन (हिमाचल प्रदेश)	06 अप्रैल 2005

1	2	3
डा. डी एस राठौर कुलपति	जी एस के हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर (हि. प्र.)	02 मई 2005
प्रो. (डा.) एस शिवसुब्रह्मणियन कुलपति	भारतीय विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	09 जुलाई 2003
डा. केशव प्रसाद सिंह कुलपति	बी एन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार	03 अगस्त 2004
मेजर एस एन मुखर्जी (रे कुलपति)	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	22 मार्च 2005
डा. एस बी सिंह कुलपति	डा. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ. प्र.)	13 सितम्बर 2004
डा. लक्ष्मण चतुर्वेदी कुलपति	पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)	13 मई 2005

जतिन्द्र सिंह

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक (एम एस)

#### थल सेना विभाग

सं. 67, दिनांक 5 जनवरी 2006.-- राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

सेना शिक्षा कोर

सूबेदार रैंक में

नायब सूबेदार श्याम स्वरूप गुप्ता (जेसी-802837ए), 16 अप्रैल 2005\*

नायब सूबेदार वीरेन्द्र सिंह (जेसी-802841एच), 02 सितम्बर 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2004 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार कुलवंत सिंह (जेसी-802832एफ), 01 मार्च 2005\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 नवम्बर 2004 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार ज्ञानेश्वर धरवाल (जेसी-802718के), 03 मई 2005=

=(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार कुलदीप कुमार (जेसी-802758एल), 01 अप्रैल 2005[

[(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 दिसम्बर 2004 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार एन राज कुमार (जेसी-802872एच), 01 जनवरी 2005  
 नायब सूबेदार कृष्ण देव (जेसी-802880एफ), 01 जनवरी 2005  
 नायब सूबेदार विनोद सिंह भदौरिया (जेसी-802895के), 19 फरवरी 2005]

](सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार सत्यबीर सिंह (जेसी-892900के), 01 फरवरी 2005

नायब सूबेदार सत्यबीर (जेसी-802906एल), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार शमशेर चन्द ठाकुर (जेसी-892908डब्ल्यू), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार कैलाश यादव (जेसी-802910एन), 01 मार्च 2005

नायब सूबेदार गिरीश चन्द्र डोभाल (जेसी-802912वाई), 04 मार्च 2005 :

:(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार अनिल चन्द्र (जेसी-802913एफ), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार मनोज कुमार द्विवेदी (जेसी-802915एम), 02 अप्रैल 2005 +

नायब सूबेदार अरविन्द कुमार (जेसी-802916पी), 02 अप्रैल 2005 +

नायब सूबेदार अधीर कुमार (जेसी-802917एक्स), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार प्रमोद कुमार साहू (जेसी-802918ए), 13 अप्रैल 2005+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार दर्शन सिंह बंद्राल (जेसी-802919एच), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार/लिपिक रूपक रंजन दास (जेसी-803173के), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार रमेश राणा (जेसी-802925डब्ल्यू), 01 मई 2005

नायब सूबेदार शेलेन्द कुमार गौड़ (जेसी-802928के), 02 मई 2005=

नायब सूबेदार सतबीर सिंह सहरावत (जेसी-802931के), 03 मई 2005=

=(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जायेगी।)

नायब सूबेदार राकेश कुमार (जेसी-802934एक्स), 15 जून 2005[

नायब सूबेदार शेर सिंह यादव (जेसी-802939डब्ल्यू), 16 जून 2005[

[(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जायेगी।)

सं. 68, दिनांक 6 जनवरी 2006.--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :--

नियमित सेना

पेराशूट रजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार खेडकर जयराम श्रीराम (सं. 2784959एल अब जेसी-412988वाई), 13 अक्टूबर 2004××

××(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अगस्त 2004)

हवलदार मलाप्पा, एस एम (सं. 13616638एन अब जेसी-412989एफ), 02 जुलाई 2005

हवलदार एस धनबाल (सं. 13617308एफ अब जेसी-412990डब्ल्यू), 02 जुलाई 2005

हवलदार सालुखे अरूण नाना (सं. 13617587एक्स अब जेसी-412991वाई), 02 जुलाई 2005

हवलदार कनवर सिंह (सं. 13614547एल अब जेसी-412992एफ), 06 सितम्बर 2005×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005)

हवलदार आशिष थापा (सं. 13615208एक्स अब जेसी-412993के), 26 सितम्बर 2005×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005)

हवलदार प्रशान्त कुमार दास (सं. 13615977ए अब जेसी-412994एम), 24 सितम्बर 2005×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005)

हवलदार मोती चन्द (सं. 13616106एन अब जेसी-412995पी), 24 सितम्बर 2005×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005)

हवलदार क्रिशन पाल सिंह तोमर (सं. 13616232ए अब जेसी-412996एक्स), 01 सितम्बर 2005

हवलदार अशोक कुमार (सं. 13616944एच अब जेसी-412997ए), 24 सितम्बर 2005×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005)

हवलदार जीरान्ध सिंह (सं. 13617218ए अब जेसी-412998एच), 24 सितम्बर 2005×

×(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005)

विजय कपूर  
 अवर सचिव

## 8 जी आर

## नायब सूबेदार/जी डी के रैंक में

हवलदार राम बहादुर श्रेष्ठ (सं. 5750446एम अब जेसी-623634ए),  
01 अगस्त 2005

हवलदार सिब लाल थापा (सं. 5750513एम अब जेसी-623635एच),  
01 अगस्त 2005

हवलदार माइत सिंह गुरुंग (सं. 5750433पी अब जेसी-623636एल),  
01 अगस्त 2005

हवलदार याम बहादुर थापा (सं. 5750514पी अब जेसी-623637एन),  
13 सितम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार रेशम लाल गुरुंग (सं. 5751477वाई अब  
जेसी-623638डब्ल्यू), 07 अगस्त 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार मन बहादुर आले (सं. 5752610एच अब जेसी-623639वाई),  
01 सितम्बर 2005

## नायब सूबेदार लिपिक/जी डी के रैंक में

हवलदार/लिपिक किरन कुमार छेत्री (सं. 5750199के अब  
जेसी-623628एम), 01 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2003 से दी जाएगी।)

हवलदार मीन बहादुर पुन (सं. 5750922ए अब जेसी-623629पी),  
09 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाएगी।)

हवलदार पहल सिंह आले (सं. 5750959एफ अब जेसी-623630के),  
01 जून 2005

हवलदार गौ बहादुर पुन (सं. 5751685एन अब जेसी-623631एम),  
01 जुलाई 2005

हवलदार राम बहादुर थापा (सं. 5749821ए अब जेसी-623632पी),  
12 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार नब राज घले (सं. 5751652एच अब जेसी-623633एक्स),  
09 अगस्त 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाएगी।)

## जम्मू और काश्मीर राईफल्स

## नायब सूबेदार जी. डी. के रैंक में

हवलदार प्रेम कुमार गुरुंग (सं. 13748408एच अब जेसी-580138एच),  
17 अगस्त 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 08 मार्च 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार जसबीर सिंह (सं. 13752068एच अब जेसी-580139एल),  
04 मई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार प्रितम सिंह (सं. 13747599डब्ल्यू अब जेसी-580140ए),  
16 जून 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 21 अप्रैल 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 13746388एफ अब जेसी-580141एच),  
16 जून 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 21 अप्रैल 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार दर्शन लाल (सं. 13746427पी अब जेसी-580142एल), 17  
जून 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार दलजीत सिंह (सं. 13749288एफ अब जेसी-580143एन),  
17 अगस्त 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार सर्व दयाल सिंह (सं. 13747462के अब जेसी-580144डब्ल्यू),  
03 अगस्त 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 10 जून 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार रशपाल सिंह (सं. 13747369एच अब जेसी-580145वाई),  
16 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार अजमेर सिंह (सं. 13747620एन अब जेसी-580146एफ),  
17 अगस्त 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 04 जुलाई 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार प्रकाश चन्द (सं. 13747714एल अब जेसी-580147के),  
17 अगस्त 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार मनोहर लाल (सं. 13748695एक्स अब जेसी-580148एम),  
27 अगस्त 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार शेर सिंह (सं. 13749101के अब जेसी-580149पी),  
21 अगस्त 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार केश बहादुर छतरी (सं. 13747418ए अब जेसी-580150के),  
01 सितम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 03 अगस्त 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार धोरु राम (सं. 13748745एक्स अब जेसी-580156एल),  
01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार जी. डी. लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक हरीश चन्द्रा सिंह बिष्ट (सं. 13750502एल अब  
जेसी-580151एम), 01 सितम्बर 2005

हवलदार लिपिक भवेश कुमार ठाकुर (सं. 13750499डब्ल्यू अब  
जेसी-580152पी), 01 सितम्बर 2005

हवलदार लिपिक मनी राम ठाकुर (सं. 13749850ए अब  
जेसी-580153एक्स), 01 सितम्बर 2005

हवलदार लिपिक एमडी मुस्ताक्युम आलम (सं. 13750037के अब  
जेसी-580154ए), 01 सितम्बर 2005

हवलदार लिपिक सर्वन सिंह चौहान (सं. 13750503एन अब  
जेसी-580155एच), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार जी. डी. के रैंक में

हवलदार बच्चन दास (सं. 13747586वाई अब जेसी-580118पी), 25  
जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार मोहन लाल (सं. 13747580एक्स अब जेसी-580119एक्स),  
24 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार बलकार सिंह (सं. 13749652पी अब जेसी-580120एम),  
24 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार दविन्दर सिंह (सं. 13747965पी अब जेसी-580121पी), 04  
अगस्त 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार अम्बर तमंग (सं. 13747381के अब जेसी-580122एक्स),  
28 जून 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 05 जून 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार मदन लाल बनियाल (सं. 13748865डब्ल्यू अब  
जेसी-580123ए), 01 अगस्त 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 09 जून 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार हरमेश सिंह (सं. 13748399एम अब जेसी-580124एच),  
25 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 18 जून 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार देव राज (सं. 13748754वाई अब जेसी-580126एन), 01  
जुलाई 2005\*

हवलदार कपूर सिंह (सं. 13748431डब्ल्यू अब जेसी-580127डब्ल्यू),  
25 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार योगराज शर्मा (सं. 13748730पी अब जेसी-580128वाई),  
24 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार लाभ सिंह (सं. 13748741एफ अब जेसी-580129एफ), 24  
जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार सुभाष चन्द्र (सं. 13747985एच अब जेसी-580130डब्ल्यू),  
28 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार तिलक राज (सं. 13749710एन अब जेसी-580131वाई),  
22 जुलाई 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार हरवंश लाल (सं. 13749017के अब जेसी-580132एफ),  
01 जुलाई 2005

हवलदार दौलत राम (सं. 13749024ए अब जेसी-580133के),  
01 जुलाई 2005

हवलदार ईरशाद खान (सं. 13749861एम अब जेसी-580134एम),  
01 अगस्त 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार राजु मल (सं. 13748409एल अब जेसी-580135पी),  
18 अगस्त 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार बलकार सिंह (सं. 13750336एच अब जेसी-580136एक्स),  
01 अगस्त 2005

हवलदार बलवीर सिंह (सं. 3383349पी अब जेसी-580137ए),  
01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार जी. डी. लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक गणेश प्रशाद (सं. 13749740एल अब  
जेसी-580125एल), 01 जुलाई 2005

नायब सूबेदार जी. डी. के रैंक में

हवलदार धारु राम (सं. 13746153पी अब जेसी-580092एल),  
01 जनवरी 2005

हवलदार प्रितम गुरुंग (सं. 13747413पी अब जेसी-580093एन),  
02 जुलाई 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार नरोत्तम सिंह (सं. 13747931एफ अब जेसी-580094डब्ल्यू),  
20 फरवरी 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार सुलतान सिंह (सं. 13747366पी अब जेसी-580095वाई),  
24 मई 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 02 अप्रैल 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार मदन लाल (सं. 13747558एम अब जेसी-580096एफ),  
27 मई 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार विजय कुमार (सं. 13747809एल अब जेसी-580097के),  
03 जून 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार सतीश कुमार (सं. 137482261एक्स अब जेसी-580098एम),  
03 जून 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार महान सिंह (सं. 13748352एफ अब जेसी-580099पी),  
03 जून 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार अशोक कुमार (सं. 13748536ए अब जेसी-580100वाई),  
29 जून 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार राज कुमार (सं. 13748031के अब जेसी-580101एफ), 18  
जून 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार गुरुचन्धन सिंह (सं. 13747248एफ अब जेसी-580102के),  
19 जून 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 03 मई 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार रोमेश चन्द्र (सं. 13747464पी अब जेसी-580103एम), 22  
जून 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 20 मई 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार भाग सिंह (सं. 13746772एच अब जेसी-580104पी),  
01 जून 2005 \*

हवलदार गुरसिन्दर सिंह (सं. 13752111वाई अब जेसी-580105एक्स),  
05 जून 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार अनिल कुमार (सं. 13748401वाई अब जेसी-580106ए),  
18 जून 2005 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार युगल किशोर (सं. 13748405पी अब जेसी-580107एच),  
18 जून 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार बहादुर सिंह सोंबरिया (सं. 13747658एक्स अब  
जेसी-580108एल), 07 जून 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार पूर्ण चन्द (सं. 13748242ए अब जेसी-580109एन),  
01 जून 2005

हवलदार मोहिन्दर सिंह (सं. 13747710पी अब जेसी-580114वाई),  
01 जुलाई 2005

हवलदार मनोहर लाल (सं. 13747713एच अब जेसी-580115एफ),  
01 जुलाई 2005

हवलदार रत्न लाल (सं. 13749059डब्ल्यू अब जेसी-580116के),  
13 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाएगी।)

नायब सूबेदार जी. डी. लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक ओम प्रकाश (सं. 13749748एक्स अब  
जेसी-580110एच), 01 जुलाई 2005

हवलदार लिपिक मोहिन्दर सिंह (सं. 13749810वाई अब  
जेसी-580111एल), 01 जुलाई 2005

हवलदार लिपिक मोहन चन्द (सं. 13750043एक्स अब  
जेसी-580112एन), 01 जुलाई 2005

हवलदार लिपिक ब्रजेश कुमार (सं. 13750361एफ अब  
जेसी-580113डब्ल्यू), 01 जुलाई 2005

मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार पाटील कृष्णत गणपति (सं. 2779361डब्ल्यू अब  
जेसी-459559एच), 07 सितम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2004 से दी जाती है।)

हवलदार गवली जनार्दन काकाजी (सं. 2785580एन अब  
जेसी-459560एक्स), 31 अगस्त 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाती है।)

हवलदार श्रीकान्त रामचन्द्र सुतार (सं. 2779355एच अब  
जेसी-459561ए), 22 अगस्त 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 16 मई 2005 से दी जाती है।)

हवलदार कदम संतोष रामभाऊ (सं. 2786264एफ अब  
जेसी-459562एच), 06 जुलाई 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है।)

हवलदार गुरव अशोक मारुती (सं. 2779447पी अब  
जेसी-459563एल), 01 अक्टूबर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 12 जून 2005 से दी जाती है।)

हवलदार जाधव चन्द्रकान्त रामचन्द्र (सं. 2784031एफ अब  
जेसी-459564एन), 06 सितम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 06 अगस्त 2005 से दी जाती है।)

हवलदार पाटील जयवंत व्यन्कू (सं. 2787019एल अब  
जेसी-459565डब्ल्यू), 24 सितम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 07 अगस्त 2005 से दी जाती है।)

हवलदार खैरनार जिवराज दशरथ (सं. 2783626एम अब  
जेसी-459566वाई), 19 सितम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जाती है।)

हवलदार दत्ता गवस (सं. 2785300पी अब जेसी-459567एफ), 05  
सितम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जाती है।)

मद्रास रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अशोक कुमार पी (सं. 2589849डब्ल्यू अब  
जेसी-439645एम), 16 अगस्त 2005

हवलदार डी कनगराजन (सं. 2589345एच अब जेसी-439646पी),  
16 अगस्त 2005

हवलदार सीनीवासाकप-पेरुमल वी (सं. 2592071एन अब  
जेसी-439647एक्स), 16 अगस्त 2005

हवलदार गान्जीकुन्टला सी एच पुल्लइयां (सं. 2592763एच अब  
जेसी-439648ए), 16 अगस्त 2005

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) विमल कुमार बी (सं. 2589080के अब  
जेसी-439609एफ), 05 अगस्त 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार (क्लर्क) धरमबीर सिंह (सं. 2589112एफ अब जेसी-439610डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005

हवलदार (क्लर्क) कमल सिंह (सं. 2589077के अब जेसी-439633एक्स), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार एम पेरियास्वामी (सं. 2590682के अब जेसी-439637एन), 27 अप्रैल 2005

हवलदार सुनील के आर (सं. 2598687एक्स अब जेसी-439630के), 01 जून 2005

हवलदार वी मुरुगेसन (सं. 2585917एफ अब जेसी-439639वाई), 21 सितम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार वी नरसिम्हा रेड्डी (सं. 2589048पी अब जेसी-439640एन), 22 सितम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जून 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार एम अलगूमले (सं. 2589296एल अब जेसी-439642वाई), 21 सितम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जून 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार ए सेबास्टीयन (सं. 2585039डब्ल्यू अब जेसी-439634ए), 19 जुलाई 2005

हवलदार पासुनूरी साथेया (सं. 2589685एल अब जेसी-439635एच), 01 अगस्त 2005

हवलदार विनोद कुमार सी (सं. 2588626एम अब जेसी-439629पी), 22 दिसम्बर 2004

हवलदार बालराज एस (सं. 2590650एफ अब जेसी-439618एच), 16 फरवरी 2005

हवलदार एस वेम्बाडियान (सं. 2592628पी अब जेसी-439638डब्ल्यू), 15 सितम्बर 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 अप्रैल 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार विक्रमन पी के (सं. 2585956ए अब जेसी-439619एल), 01 जून 2005

हवलदार विजया कुमार के (सं. 2587270एक्स अब जेसी-439622एल), 17 अगस्त 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 जून 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार रामाकृष्णन पी (सं. 2593581एफ अब जेसी-439631एम), 01 जुलाई 2005

हवलदार विल्सन टी वी (सं. 2590593एल अब जेसी-439632पी), 01 जुलाई 2005

लद्दाख स्काउट्स

नायब सूबेदार (जी. डी.) के पद पर

हवलदार ताशी वांग्चुक (सं. 9922695एक्स अब जेसी-588382एक्स), 15 मई 2005/01 जनवरी 2005@

हवलदार छेवांग रिगिन (सं. 9923330पी अब जेसी-588383ए), 27 अप्रैल 2005/01 मार्च 2005@

हवलदार चम्बा चोसजंग (सं. 9923332ए अब जेसी-588384एच), 02 मई 2005/01 मार्च 2005@

हवलदार तरग्यास छोसपेल (सं. 9923327पी अब जेसी-588385एल), 27 अप्रैल 2005/01 मार्च 2005@

हवलदार लक्सपर टुंडुप (सं. 9923334एल अब जेसी-588386एन), 27 अप्रैल 2005/01 मार्च 2005@

हवलदार अंग्चुक रफतान (सं. 9923336डब्ल्यू अब जेसी-588387डब्ल्यू), 11 जून 2005/23 मई 2005@

हवलदार टुंडुप दोरजै (सं. 9923351एल अब जेसी-588390डब्ल्यू), 27 जून 2005/01 जून 2005@

हवलदार राज कुमार (सं. 9923352एन अब जेसी-588391वाई), 11 जून 2005/01 जून 2005@

हवलदार छेरिंग अंग्चुक (सं. 9923359एक्स अब जेसी-588392एफ), 14 जून 2005/01 जून 2005@

हवलदार थुक्जे रिनचन (सं. 9923361पी अब जेसी-588393के), 11 जून 2005/01 जून 2005@

हवलदार लिपिक कुलदीप सिंह गुलेरिया (सं. 9923201पी अब जेसी-588388वाई), 11 जून 2005/26 मई 2005@

हवलदार लिपिक शाम लाल (सं. 9922849वाई अब जेसी-588389एफ), 11 जून 2005/01 जून 2005@

@(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

सिख लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में

हवलदार गोपाल सिंह (सं. 4463558एच अब जेसी-509255के), 14 जून 2005×

×(नायब सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाएगी।)



हवलदार गुरमीत सिंह (सं. 4466615एक्स अब जेसी-509256एम),  
20 मार्च 2005×

×(नायब सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाएगी।)

हवलदार जगरान्त सिंह (सं. 4460127वाई अब जेसी-509257पी),  
01 अप्रैल 2005×

×(नायब सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार सूरिन्दरपाल सिंह (सं. 4463623एल अब जेसी-509258एक्स), 15 जून 2005×

×(नायब सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार गुरचरन सिंह (सं. 4463668एल अब जेसी-509259ए),  
16 जून 2005×

×(नायब सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 फरवरी 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार दारा सिंह (सं. 4469726ए अब जेसी-509260पी),  
15 जून 2005×

×(नायब सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार लाभ सिंह (सं. 4468623पी अब जेसी-509261एक्स),  
15 जून 2005×

×(नायब सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार नसीब सिंह (सं. 4465377के अब जेसी-509263एच),  
30 अगस्त 2005×

×(नायब सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 नवम्बर 2004 से दी जाएगी।)

हवलदार हरनेक सिंह (सं. 4462465पी अब जेसी-509264एल),  
09 अगस्त 2005×

×(नायब सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2004 से दी जाएगी।)

हवलदार अवतारपाल सिंह (सं. 4467509एल अब जेसी-509265एन),  
01 जुलाई 2005×

×(नायब सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जनवरी 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार जरनैल सिंह (सं. 4467222एन अब जेसी-509267वाई),  
25 जून 2005×

×(नायब सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार हरमेश सिंह (सं. 4465555एफ अब जेसी-509268एफ),  
10 अगस्त 2005×

×(नायब सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 जून 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार हाकम सिंह (सं. 4462994एफ अब जेसी-509269के),  
12 अगस्त 2005×

×(नायब सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 जुलाई 2005 से दी जाएगी।)

नायब सूबेदार (क्लर्क जी. डी.) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) रमेश चन्द्र यादव (सं. 4465620डब्ल्यू अब जेसी-509266डब्ल्यू), 06 जुलाई 2005×

×(नायब सूबेदार (क्लर्क जी. डी.) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाएगी।)

राजपूताना राईफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार क्लर्क नरेश कुमार (सं. 2881550एन अब जेसी-469793एम),  
01 मई 2005

हवलदार मोहम्मद नुकमान (सं. 2879647ए अब जेसी-469794पी),  
01 जुलाई 2005

हवलदार चिंतर सिंह (सं. 2880262पी अब जेसी-469795एक्स),  
01 जुलाई 2005

हवलदार अतर सिंह (सं. 2881281एम अब जेसी-469796ए),  
09 सितम्बर 2005/15 जुलाई 2005×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जुलाई 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार निजामुद्दीन (सं. 2883182एच अब जेसी-469797एच),  
18 जुलाई 2005

हवलदार क्लर्क जय प्रकाश सिंह (सं. 2881556पी अब जेसी-469798एल), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार संतोश सिंह तोमर (सं. 2881000एल अब जेसी-469786डब्ल्यू), 17 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2005 से दी जाएगी।)

हवलदार सुमेर सिंह (सं. 2881005के अब जेसी-469787वाई),  
01 जून 2005

हवलदार राज कुमार (सं. 2882373एल अब जेसी-469788एफ),  
01 जून 2005

हवलदार महाबीर सिंह, एस एम (सं. 2878785पी अब जेसी-469789के), 01 अगस्त 2005

हवलदार दीप चंद (सं. 2879109एम अब जेसी-469790वाई), 01 अगस्त 2005

हवलदार केशव सिंह (सं. 2879968एक्स अब जेसी-469791एफ), 04 अगस्त 2005

हवलदार सुमेर सिंह (सं. 2879894एन अब जेसी-469792के), 01 सितम्बर 2005

जाट रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भीम सिंह (सं. 3176219ए अब जेसी-489733वाई), 01 सितम्बर 2005

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 3177044पी अब जेसी-489734एफ), 01 सितम्बर 2005

हवलदार दिलबाग सिंह (सं. 3176363ए अब जेसी-489735के), 01 सितम्बर 2005

हवलदार सुरेश कुमार पंगल (सं. 3177034एल अब जेसी-489736एम), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार विजया कुमार (सं. 3178991एच अब जेसी-489737पी), 01 अक्टूबर 2005

हवलदार प्रभु सिंह (सं. 3177878एफ अब जेसी-489738एक्स), 01 नवम्बर 2005

4 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार गम प्रसाद थापा (सं. 5345593एक्स अब जेसी-612614एम), 17 जून 2005@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अप्रैल 2005)

हवलदार कृष्णा बहादुर गुरूंग (सं. 5345872एच अब जेसी-612615पी), 01 अप्रैल 2005

हवलदार तील बहादुर थापा (सं. 5345347एम अब जेसी-612616एक्स), 01 अप्रैल 2005

हवलदार नर बहादुर थापा (सं. 5345962के अब जेसी-612617ए), 07 जून 2005@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अप्रैल 2005)

हवलदार राम बहादुर थापा (सं. 5345594ए अब जेसी-612618एच), 17 मई 2005@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 28 अप्रैल 2005)

हवलदार भुवन सिंह थापा (सं. 5346003ए अब जेसी-612619एल), 09 मई 2005@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 28 अप्रैल 2005)

हवलदार लिपिक सत्य राम पाल (सं. 5345314एफ अब जेसी-612620ए), 25 मई 2005@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 मई 2005)

हवलदार लिपिक ऊमा शंकर भारती (सं. 5345351पी अब जेसी-612621एच), 01 जून 2005

हवलदार यम प्रसाद गुरूंग (सं. 5345626एक्स अब जेसी-612622एल), 06 जून 2005@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जून 2005)

हवलदार राम बहादुर गुरूंग (सं. 5346018ए अब जेसी-612623एन), 28 जून 2005@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जून 2005)

हवलदार भीम बहादुर पुन (सं. 5345459एन अब जेसी-612624डब्ल्यू), 09 जून 2005@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जून 2005)

हवलदार कृष्णा बहादुर थापा (सं. 5345993एफ अब जेसी-612625वाई), 01 जून 2005

हवलदार गम बीर जंग गुरूंग (सं. 5346013एक्स अब जेसी-612626एफ), 01 जून 2005

हवलदार ज्याम बहादुर थापा (सं. 5346038डब्ल्यू अब जेसी-612627के), 01 जून 2005

हवलदार कृष्णा बहादुर गुरूंग (सं. 5346039वाई अब जेसी-612628एम), 01 जून 2005

हवलदार लिपिक उदय कुमार सिंह (सं. 5345361वाई अब जेसी-612629पी), 01 जुलाई 2005

हवलदार नर भुपाल गुरूंग (सं. 5345810एच अब जेसी-612631एम), 18 जुलाई 2005@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जुलाई 2005)

हवलदार नीरंजन थापा (सं. 5345429पी अब जेसी-612632पी), 01 जुलाई 2005

हवलदार लिपिक अजीत कुमार ठाकुर (सं. 5345371एम अब जेसी-612633एक्स), 01 अगस्त 2005

हवलदार हेम बहादुर तमंग (सं. 5345918ए अब जेसी-612634ए), 08 सितम्बर 2005@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अगस्त 2005)

हवलदार शेर बहादुर पुन (सं. 5345922एच अब जेसी-612635एच), 06 अगस्त 2005@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अगस्त 2005)

हवलदार हरका बहादुर शीरीश (सं. 5345901एम अब जेसी-612636एल), 01 अगस्त 2005

हवलदार गणेश बहादुर गुरूंग (सं. 5345928के अब जेसी-612637एन),  
06 अगस्त 2005@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अगस्त 2005)

हवलदार अर्जुन गुरूंग (सं. 5346069डब्ल्यू अब जेसी-612638डब्ल्यू),  
04 अगस्त 2005@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अगस्त 2005)

हवलदार जंग बहादुर थापा (सं. 5346386एक्स अब जेसी-612639वाई), 04 अगस्त 2005@

@(ज्येष्ठता, वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अगस्त 2005)

हवलदार टेक बहादुर राना (सं. 5346049एच अब जेसी-612640एन),  
04 अगस्त 2005

हवलदार गोपाल बहादुर गुरूंग (सं. 5346152एन अब जेसी-612641डब्ल्यू), 04 अगस्त 2005

हवलदार सिद्धा बहादुर थापा (सं. 5346164एच अब जेसी-612642वाई), 04 अगस्त 2005

हवलदार नन्दा बहादुर गुरूंग (सं. 5346180ए अब जेसी-612643एफ),  
04 अगस्त 2005

हवलदार लिपिक राधेश्याम (सं. 5345428एम अब जेसी-612644के),  
01 सितम्बर 2005

हवलदार लिपिक मीमकाजी श्रेष्ठा (सं. 5344675एन अब जेसी-612645एम), 01 सितम्बर 2005

#### डोगरा रेजीमेंट

##### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अमीन चन्द (सं. 3988061डब्ल्यू अब जेसी-520174के),  
16 अप्रैल 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 नवम्बर 2004 से।)

हवलदार रमेश चन्द (सं. 3982409के अब जेसी-520175एम),  
01 जुलाई 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 नवम्बर 2004 से।)

हवलदार राजेश कुमार (सं. 3983812एच अब जेसी-520176पी), 13 फरवरी 2005

हवलदार दलजीत सिंह चन्जोतीरा (सं. 3983083एल अब जेसी-520177एक्स), 01 अप्रैल 2005

हवलदार राकेश कुमार वैद (सं. 3994564एक्स अब जेसी-520178ए),  
19 अप्रैल 2005

हवलदार शेर सिंह वर्मा (सं. 3983084एन अब जेसी-520179एच),  
01 मई 2005

हवलदार राकेश सिंह (सं. 3985900एक्स अब जेसी-520180एक्स),  
14 अक्टूबर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 मई 2005 से।)

हवलदार ध्यान सिंह (सं. 3983218एफ अब जेसी-520181ए),  
01 जून 2005

हवलदार गोपाल सिंह (सं. 3983233डब्ल्यू अब जेसी-520182एच),  
01 जून 2005

हवलदार सर्व सिंह (सं. 3987018एच अब जेसी-520183एल),  
01 जून 2005

हवलदार मोहन लाल (सं. 3983931वाई अब जेसी-520184एन), 05 जून 2005

हवलदार रतन सिंह (सं. 3983948एम अब जेसी-520185डब्ल्यू), 07 जून 2005

हवलदार मोहन सिंह (सं. 3981692डब्ल्यू अब जेसी-520186वाई),  
01 जुलाई 2005

हवलदार राम पाल (सं. 3983151एन अब जेसी-520187एफ),  
01 जुलाई 2005

हवलदार वीर अभिमन्यू डढवाल (सं. 3988985के अब जेसी-520188के), 01 जुलाई 2005

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 3985910एफ अब जेसी-520189एम), 14 सितम्बर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जुलाई 2005 से।)

हवलदार रन्जीत सिंह (सं. 3984597पी अब जेसी-520190एफ), 01 अगस्त 2005

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 4358536वाई अब जेसी-520191के), 01 अगस्त 2005

हवलदार चूनी लाल (सं. 3983573वाई अब जेसी-520192एम), 17 सितम्बर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से।)

हवलदार दिलीप ट्राकरो (सं. 3986698एफ अब जेसी-520193पी),  
01 अगस्त 2005

हवलदार देशराज शर्मा (सं. 3984075वाई अब जेसी-520194एक्स),  
09 सितम्बर 2005+

+(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अगस्त 2005 से।)

हवलदार सुनील कुमार (सं. 3994907एच अब जेसी-520195ए), 08 अगस्त 2005

हवलदार राज कुमार (सं. 3983252एफ अब जेसी-520196एच), 01 सितम्बर 2005

हवलदार अशोक कुमार (सं. 3983422ए अब जेसी-520197एल), 01 सितम्बर 2005

हवलदार प्रीतम शर्मा (सं. 3982847एम अब जेसी-520198एन), 01 सितम्बर 2005

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 3983244एच अब जेसी-520199डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2005

हवलदार हुकम चन्द (सं. 3985623एक्स अब जेसी-520200ए), 01 सितम्बर 2005

हवलदार मस्तान सिंह (सं. 3985350ए अब जेसी-520201एच), 01 सितम्बर 2005

हवलदार बासु देव सिंह (सं. 3989023एम अब जेसी-520202एल), 01 सितम्बर 2005

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक कमल सिंह (सं. 3985333ए अब जेसी-520203एन), 01 अगस्त 2005

हवलदार लिपिक राजवीर शर्मा (सं. 3985335एल अब जेसी-520204डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005

हवलदार लिपिक मोहिन्दर सिंह (सं. 3985342एफ अब जेसी-520205वाई), 01 अगस्त 2005

हवलदार लिपिक मदन लाल (सं. 3985346एक्स अब जेसी-520206एफ), 01 सितम्बर 2005

हवलदार लिपिक नागेन्द्रा सिंह (सं. 3985672ए अब जेसी-520207के), 01 सितम्बर 2005

कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार प्रवीन चंद्र नाथ (सं. 7772160के अब जेसी-819027एन), 21 मई 2005#

हवलदार मानसिध टोपनो (सं. 7773480एल अब जेसी-819028डब्ल्यू), 16 मई 2005#

हवलदार उत्तम कुमार पाल (सं. 7773610एच अब जेसी-819029वाई), 02 मई 2005#

हवलदार नारु गोपाल बिश्वास (सं. 7773612एन अब जेसी-819030एन), 02 मई 2005#

हवलदार जबीर अली (सं. 7773607एच अब जेसी-819032वाई), 13 जून 2005&

हवलदार दस्तागीर खान (सं. 7773581वाई अब जेसी-819033एफ), 01 जून 2005

हवलदार अचप्पा ए ए (सं. 7773583के अब जेसी-819034के), 01 जून 2005

हवलदार श्याम सिंह (सं. 7773623ए अब जेसी-819035एम), 01 जून 2005

हवलदार अरुण कुमार सहर (सं. 7773624एच अब जेसी-819036पी), 01 जून 2005

हवलदार गोपाला कृष्णा कर्णावर एन जी (सं. 7773589एल अब जेसी-819037एक्स), 06 जून 2005&

हवलदार राम बिलास (सं. 7773642एल अब जेसी-819038ए), 01 जून 2005

हवलदार एम राजेन्द्रन (सं. 7773632एफ अब जेसी-819039एच), 01 जून 2005

हवलदार राम नारायण चौबे (सं. 7773671ए अब जेसी-819040एक्स), 01 जून 2005

हवलदार अशोक कुमार सिंह (सं. 7773673एल अब जेसी-819041ए), 01 जून 2005

हवलदार राम दयाल सिंह (सं. 7773674एन अब जेसी-819042एच), 01 जून 2005

हवलदार बलबीन्दर सिंह (सं. 7772300एल अब जेसी-819046वाई), 01 जुलाई 2005

हवलदार राज कुमार (सं. 7773647के अब जेसी-819047एफ), 01 जुलाई 2005

हवलदार बिजय कुमार सिंह (सं. 7773679एम अब जेसी-819048के), 01 जुलाई 2005

हवलदार राम प्रसाद मिश्रा (सं. 7773680एफ अब जेसी-819049एम), 06 अगस्त 2005%

हवलदार महेश शर्मा (सं. 7773682एम अब जेसी-819050एफ), 12 जुलाई 2005%

हवलदार रामेश्वर प्रसाद सिंह (सं. 7773614वाई अब जेसी-819051के), 09 जुलाई 2005%

हवलदार गुरुमुख सिंह (सं. 7773719एच अब जेसी-819052एम), 18 जुलाई 2005%

हवलदार दलबीर (सं. 7773720एक्स अब जेसी-819053पी), 27 जुलाई 2005%

हवलदार पती राम वर्मा (सं. 7773579एफ अब जेसी-819054एक्स), 25 जुलाई 2005%

हवलदार पी आदीमूलम (सं. 7772431डब्ल्यू अब जेसी-819055ए),  
08 अगस्त 2005%

हवलदार मोहन राम पनवर (सं. 7773633के अब जेसी-819056एच),  
06 अगस्त 2005%

हवलदार बिनोद कुमार सिंह (सं. 7773664के अब जेसी-819057एल),  
25 जुलाई 2005%

हवलदार बिरेन्द्र कुमार (सं. 7773650के अब जेसी-819058एन),  
15 अगस्त 2005%

हवलदार देवी प्रसाद शुक्ला (सं. 7773540पी अब  
जेसी-819059डब्ल्यू), 26 जुलाई 2005%

हवलदार किशुन दयाल राय (सं. 7773657एन अब जेसी-819060एल),  
22 जुलाई 2005%

हवलदार कुशलप्पा जी पी (सं. 7773559एन अब जेसी-819061एन),  
25 जुलाई 2005%

हवलदार बिरेन्द्र प्रसाद (सं. 7773655एच अब जेसी-819062डब्ल्यू),  
06 अगस्त 2005%

हवलदार महावीर प्रसाद रैया (सं. 7773686एच अब  
जेसी-819063वाई), 01 अगस्त 2005%

हवलदार सीता राम द्विवेदी (सं. 7773693वाई अब जेसी-819064एफ),  
14 अगस्त 2005%

हवलदार शम्भु नाथ राम (सं. 7772606एन अब जेसी-819066एम),  
02 अगस्त 2005@

हवलदार जसबीर सिंह (सं. 7773738एन अब जेसी-819067पी),  
01 अगस्त 2005

हवलदार अनंत विजय सिंह (सं. 7773733पी अब जेसी-819068एक्स),  
04 अगस्त 2005@

हवलदार दिलीप छेत्री (सं. 7773775एफ अब जेसी-819069ए),  
05 अगस्त 2005@

हवलदार गुमान सिंह (सं. 7773715एम अब जेसी-819070पी),  
01 अगस्त 2005

हवलदार जसबीर सिंह (सं. 7773711डब्ल्यू अब जेसी-819071एक्स),  
19 अगस्त 2005@

हवलदार गायकवाड आनंद धोन्डीबा (सं. 7773788वाई अब  
जेसी-819072ए), 01 सितम्बर 2005

हवलदार आर कोलन्चीयप्पन (सं. 7773742डब्ल्यू अब  
जेसी-819073एच), 01 सितम्बर 2005

#(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 मई 2005 से दी जाती है)

&(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

m(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2004 से दी जाती है)

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

@(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2005 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार परीमल चन्द्र दास (सं. 7773355एफ अब  
जेसी-819031डब्ल्यू), 01 जून 2005

हवलदार अबानिन्द्रा नाथ बसक (सं. 7773356के अब  
जेसी-819043एल), 22 अगस्त 2005%

हवलदार चमन लाल (सं. 7773357एम अब जेसी-819044एन),  
15 जुलाई 2005%

हवलदार एन दामोदर रेड्डी (सं. 7773361पी अब  
जेसी-819045डब्ल्यू), 05 सितम्बर 2005%

हवलदार यम बहादुर छेत्री (सं. 7773389पी अब जेसी-819065के),  
01 अगस्त 2005

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना  
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

दिवाकर  
अवर सचिव

सं. 69, दिनांक 5 जनवरी 2006.--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित  
पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

सेना वायु रक्षा कोर

नायब सूबेदार के पद में

बीएचएम एस चंद्रन (सं. 15101454एफ अब जेसी-299292एक्स),  
22 जुलाई 2005/04 जून 2005\*

बीएचएम के ई प्रसाद (सं. 14359946वाई अब जेसी-299293ए),  
15 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005\*

बीएचएम हकीकत सिंह (सं. 14366685वाई अब जेसी-299294एच),  
01 अगस्त 2005/09 जुलाई 2005\*

आरएचएम सुखविंदर सिंह (सं. 14358637एक्स अब  
जेसी-299295एल), 12 सितम्बर 2005/31 जुलाई 2005\*

आरएचएम सुखवंत सिंह (सं. 14359098एल अब जेसी-299296एन),  
01 अगस्त 2005

आरएचएम जोगिन्दर पाल (सं. 14358308एन अब  
जेसी-299297डब्ल्यू), 22 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005\*

आरएचएम रामधन यादव (सं. 14364977एच अब जेसी-299298वाई), 01 सितम्बर 2005

हवलदार राज कुमार (सं. 14359843ए अब जेसी-299299एफ), 01 सितम्बर 2005

बीएचएम बोपईया एम आर (सं. 14388862एन अब जेसी-299300एल), 01 सितम्बर 2005

हवलदार खुब लाल प्रसाद (सं. 14359299के अब जेसी-299301एन), 05 सितम्बर 2005/01 सितम्बर 2005 \*

बीएचएम एम मुरुगेसन (सं. 14363827ए अब जेसी-299302डब्ल्यू), 10 सितम्बर 2005/01 सितम्बर 2005 \*

बीएचएम गुरमीत सिंह (सं. 14359254के अब जेसी-299303वाई), 15 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005 \*

आरएचएम भंवर सिंह (सं. 14356611डब्ल्यू अब जेसी-299304एफ), 22 सितम्बर 2005/01 जुलाई 2005 \*

बीएचएम रमेश कुमार (सं. 14356799डब्ल्यू अब जेसी-299305के), 22 सितम्बर 2005/01 जुलाई 2005 \*

बीएचएम मातबार यादव (सं. 14358865एम अब जेसी-299306एम), 22 सितम्बर 2005/01 जुलाई 2005 \*

हवलदार चंद्रन अथीक्का (सं. 14490734के अब जेसी-299307पी), 27 अगस्त 2005/02 जुलाई 2005 \*

बीएचएम एम मुनीराजुलु (सं. 14369845वाई अब जेसी-299308एक्स), 22 सितम्बर 2005/20 जुलाई 2005 \*

हवलदार दिलीप कुमार (सं. 14362336एक्स अब जेसी-299309ए), 01 सितम्बर 2005

हवलदार मदन लाल (सं. 14359788पी अब जेसी-299310पी), 22 सितम्बर 2005/02 सितम्बर 2005 \*

हवलदार शंकर सिंह शेखावत (सं. 14472178डब्ल्यू अब जेसी-299311एक्स), 21 सितम्बर 2005/02 सितम्बर 2005 \*

आरएचएम अवदेश कुमार (सं. 14362693ए अब जेसी-299312ए), 26 सितम्बर 2005/09 सितम्बर 2005 \*

आरएचएम सोमपाल सिंह (सं. 14354349ए अब जेसी-299313एच), 01 अक्टूबर 2005/11 सितम्बर 2005 \*

बीएचएम सुखदेव सिंह (सं. 14369739ए अब जेसी-299314एल), 19 सितम्बर 2005/13 सितम्बर 2005 \*

हवलदार रविन्द्रा सिंह (सं. 14362768एम अब जेसी-299315एन), 08 अक्टूबर 2005/25 सितम्बर 2005 \*

हवलदार मिलन देव वर्मा (सं. 14356191एफ अब जेसी-299316डब्ल्यू), 06 अक्टूबर 2005/27 सितम्बर 2005 \*

बीएचएम बलविंदर सिंह (सं. 14358800वाई अब जेसी-299317वाई), 22 सितम्बर 2005/01 जुलाई 2005 \*

बीएचएम विजय कुमार (सं. 14366585एन अब जेसी-299318एफ), 22 सितम्बर 2005/01 जुलाई 2005 \*

हवलदार याद राम (सं. 14367156वाई अब जेसी-299319के), 06 अक्टूबर 2005/15 जुलाई 2005 \*

बीएचएम राम नरेश सिंह (सं. 14376778एफ अब जेसी-299320वाई), 01 अक्टूबर 2005/31 जुलाई 2005 \*

बीएचएम श्री नाथ (सं. 14485346एच अब जेसी-299321एफ), 21 सितम्बर 2005/01 अगस्त 2005 \*

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 14359099एन अब जेसी-299322के), 08 अक्टूबर 2005/19 अगस्त 2005 \*

हवलदार हरींद्रन कुरुवला वीत्तील (सं. 14366821के अब जेसी-299323एम), 19 सितम्बर 2005/01 सितम्बर 2005 \*

हवलदार शिवानंद ईरप्पा हन्दूर (सं. 14356646एम अब जेसी-299324पी), 15 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 \*

आरएचएम सुरेंद्रन के (सं. 14363291पी अब जेसी-299325एक्स), 19 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 \*

आरएचएम रंजित सिंह (सं. 14375100एफ अब जेसी-299326ए), 26 सितम्बर 2005/05 सितम्बर 2005 \*

आरएचएम जसवीर सिंह (सं. 14375855वाई अब जेसी-299327एच), 10 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005 \*

\*(पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

एम. एम. सिंह  
अवर सचिव

#### थल सेना विभाग

सं. 70, दिनांक 9 जनवरी 2006.--थल सेना अनुदेश 37/78 व थल सेना अनुदेश 10/02 द्वारा उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

#### नियमित सेना

#### सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थाई कमीशन)

मेजर से लेफ्टि कर्नल के पद पर

डी आर-10453वाई, एम प्रकाश, 28 अगस्त 2005

डी आर-10445ए, एम के रथ, 25 सितम्बर 2005

डी आर-10446एच, बी पी पांडा, 30 सितम्बर 2005

डी आर-10449डब्ल्यू, एस के रथ, 04 अक्टूबर 2005

परमजीत सिंह  
लेफ्टि जनरल  
डी जी डी एस

## सेना सचिव शाखा

सं. 71, दिनांक 10 जनवरी 2006.-- राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

## नियमित सेना

## स्थायी कमीशन

## ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

रैंक, नाम, आईसी, आर्म, ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि

कर्नल नवाब सिंह (आईसी-32239), मेक इन्फैन्ट्री--05 मार्च 2003

कर्नल तेजिन्दर सिंह, वी आर सी (आईसी-29813), एओसी--01 अप्रैल 2003

कर्नल के डी पगनीस (आईसी-25813), मेक इन्फैन्ट्री--02 अप्रैल 2003

कर्नल ए के अरोरा (आईसी-25974), मद्रास--03 अप्रैल 2003

कर्नल एम एन कारनिक (आईसी-27228), मेक इन्फैन्ट्री--04 अप्रैल 2003

कर्नल ए के वाही (आईसी-27392), सिग्नल्स--01 अप्रैल 2003 से ज्येष्ठता परन्तु 05 अप्रैल 2003 से वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना दी जाएगी।

कर्नल के पी एस राना (आईसी-27409), जैक रिफ--06 अप्रैल 2003

कर्नल ई जैकब कोच्चेकन (आईसी-33015), 5 जी आर--07 अप्रैल 2003

कर्नल एस एस यादव (आईसी-33032), राजपूत--08 अप्रैल 2003

कर्नल एस सी उपरेती (आईसी-33151), 4 जी आर--21 अप्रैल 2003

कर्नल ए एम पी राव, एस एम (आईसी-33183), ग्रिनेडियर--28 अप्रैल 2003

कर्नल राम प्रताप (आईसी-32844), ए डी आर्टी--01 मई 2003

कर्नल एच एस नागरा (आईसी-32845), 4 जी आर--02 मई 2003

कर्नल ए एम शर्मा (आईसी-32851), ए डी आर्टी--03 मई 2003

कर्नल एस एस साम्बयाल (आईसी-32863), इन्फैन्ट्री--05 मई 2003

कर्नल आर आर बाली (आईसी-32865), ए डी आर्टी--06 मई 2003

कर्नल प्रवीन पॉल (आईसी-32869), ए डी आर्टी--07 मई 2003

कर्नल ओ पी तोमर (आईसी-32876), डोगरा--08 मई 2003

कर्नल सी एच डुमासिया (आईसी-32906), ए डी आर्टी--09 मई 2003

कर्नल बी आर आर्या (आईसी-36381), सिग्नल्स--01 जनवरी 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 मई 2003 से दी जाएगी।

कर्नल एस एन शाह (आईसी-27601), इंजीनियर्स--11 मई 2003

कर्नल थॉमस जोस (आईसी-27603), ईएमई--01 अगस्त 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12 मई 2003 से दी जाएगी।

कर्नल के ए राव (आईसी-27605), 70 ए आर--13 मई 2003

कर्नल ए के सिंह, वी एस एम (आईसी-27606), 7 कैव--21 मई 2003

कर्नल आर के हुड्डा (आईसी-27608), गार्डस--22 मई 2003

कर्नल के एस जसवाल (आईसी-27611), 71 ए आर--25 मई 2003

कर्नल के एस नाथ (आईसी-27616), मेक इन्फैन्ट्री--01 जून 2003

कर्नल हरदेव सिंह (आईसी-27619), मेक इन्फैन्ट्री--02 जून 2003

कर्नल एन एस मलिक (आईसी-27623), आर्टी (जीसी)--03 जून 2003

कर्नल विवेक मेहता (आईसी-27625), 14 हार्स--04 जून 2003

कर्नल ए के एस शेरॉन (आईसी-27628), 9 हार्स--05 जून 2003

कर्नल अशोक पिल्लई (आईसी-27632), डोगरा--06 जून 2003

कर्नल के के भट्टाचार्य (आईसी-27633), जाट--07 जून 2003

कर्नल आर सी मलिक (आईसी-27635), गढ़ रिफ--08 जून 2003

कर्नल वी के वढ़ेरा (आईसी-27637), आर्टी (जी सी)--09 जून 2003

कर्नल परविन्दर सिंह, एस एम (आईसी-27638), आर्टी--10 जून 2003

कर्नल ए एस परहार (आईसी-27640), सिग्नल्स--01 फरवरी 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11 जून 2003 से दी जाएगी।

कर्नल एस एस कदन, (आईसी-27641), 1 हार्स--12 जून 2003

कर्नल रंजीत प्रसाद (आईसी-27643), 9 जी आर--01 जुलाई 2003

कर्नल रामेश्वर रॉय, (आईसी-27645), जैक रिफ--02 जुलाई 2003

कर्नल महिन्दर सिंह (आईसी-27653), इंजीनियर्स--03 जुलाई 2003

कर्नल के एन ऋषि (आईसी-27658), ए ओ सी--04 जुलाई 2003

कर्नल एस एस पठानिया (आईसी-27661), 67 ए आर--05 जुलाई 2003

कर्नल मोहे कमल (आईसी-27667), एएससी--06 जुलाई 2003

कर्नल डी राजन (आईसी-27673), आर्टी--07 जुलाई 2003

कर्नल एस एस राव (आईसी-27678), 5 जी आर--09 जुलाई 2003

कर्नल एन बी मारवाह (आईसी-27679), कुमारु--23 जुलाई 2003

कर्नल यू के धर (आईसी-27682), राज रिफ--01 अगस्त 2003

कर्नल के बी दास (आईसी-27686), महार--02 अगस्त 2003

कर्नल डी एस सिद्धू (आईसी-27701), 17 हास--03 अगस्त 2003

कर्नल वी पी एस खटी, वी एस एम (आईसी-27702), पारा--04 अगस्त 2003

कर्नल पी के सैनी (आईसी-27703), डोगरा --05 अगस्त 2003

कर्नल ए के मलिक, वी एस एम (आईसी-27708), जैक लाई --06 अगस्त 2003

कर्नल एफ बी डी ए गामा रोस (आईसी-27714), आर्टी--07 अगस्त 2003

कर्नल सोमेन ब्रह्मा (आईसी-27715), ए ओ सी--08 अगस्त 2003

कर्नल अशोक सिन्हा (आईसी-27725), इंजीनियर्स--09 अगस्त 2003

कर्नल एस एन यारगोप (आईसी-27731), 1 जी आर--10 अगस्त 2003

कर्नल जे एस बेदी (आईसी-27744), आर्टी--11 अगस्त 2003

कर्नल एस एस भाटिया (आईसी-27746), जैक रिफ--12 अगस्त 2003

कर्नल मैथ्यू चेरियन (आईसी-27757), सिग्नल्स--01 फरवरी 2004 से परन्तु ज्येष्ठता वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13 अगस्त 2003 से दी जाएगी।

कर्नल सी प्रकाश (आईसी-27761), आर्टी (जीसी)--14 अगस्त 2003

कर्नल प्रदीप भल्ला (आईसी-27767), एओसी--15 अगस्त 2003

कर्नल जे सी शर्मा (आईसी-27776), ग्रिनेडियर--01 सितम्बर 2003

कर्नल जगबीर सिंह कुंडू (आईसी-27778), आर्टी--02 सितम्बर 2003

कर्नल वी के पाटिल (आईसी-27779), 11 जी आर--03 सितम्बर 2003

कर्नल पी जी कामथ (आईसी-27782), मद्रास--04 सितम्बर 2003

कर्नल जतिन्दर सिंह (आईसी-27793), गार्ड्स --05 सितम्बर 2003

कर्नल आर एस नेहरा (आईसी-27796), 45 कैव --06 सितम्बर 2003

कर्नल एन वी नायर (आईसी-27797), आर्टी--07 सितम्बर 2003

कर्नल सुनील धवन (आईसी-27804), एडी आर्टी--08 सितम्बर 2003

कर्नल वी के बतूरा (आईसी-27827), 4 जी आर--09 सितम्बर 2003

कर्नल एस एस चिकारा (आईसी-27836), राजपूत--10 सितम्बर 2003

कर्नल कंवलजीत सिंह (आईसी-27841), इंजीनियर्स --11 सितम्बर 2003

कर्नल के के डोगरा (आईसी-27847), ईएमई--01 अगस्त 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12 सितम्बर 2003 से दी जाएगी।

कर्नल जे एस मनकिकर (आईसी-27853), एडी आर्टी --13 सितम्बर 2003

कर्नल एस आर भजगांवकर (आईसी-31223), इंजीनियर्स--14 सितम्बर 2003

कर्नल ए के पाठक (आईसी-31231), सिग्नल्स--01 फरवरी 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15 सितम्बर 2003 से दी जाएगी।

कर्नल पी के भाटिया (आईसी-31248), सिग्नल्स--01 फरवरी 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 अक्टूबर 2003 से दी जाएगी।

कर्नल सोमनाथ मिश्रा (आईसी-31252), ईएमई--01 मार्च 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 02 अक्टूबर 2003 से दी जाएगी।

कर्नल एम के गुप्ता (आईसी-31274), सिग्नल्स--01 फरवरी 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 अक्टूबर 2003 से दी जाएगी।

कर्नल वी के शर्मा (आईसी-33233), 8 जी आर--04 अक्टूबर 2003

कर्नल रामेश्वर दास (आईसी-33005), इन्फैन्ट्री--06 अक्टूबर 2003

कर्नल के एस पठनिया (आईसी-33007), मेक इन्फैन्ट्री--19 मार्च 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 07 अक्टूबर 2003 से दी जाएगी।

कर्नल जसजीत सिंह (आईसी-33012), 3 कैव--08 अक्टूबर 2003

कर्नल एल एस ठकुर (आईसी-33021), इन्फैन्ट्री--09 अक्टूबर 2003

कर्नल जे आर शर्मा (आईसी-33026), आर्टी--10 अक्टूबर 2003

कर्नल एस पी मेनन (आईसी-33034), आर्टी--11 अक्टूबर 2003

कर्नल पी एस पुरी (आईसी-33042), आर्टी (जी सी)--12 अक्टूबर 2003

कर्नल एस के चौधरी (आईसी-33052), इन्ट--20 अक्टूबर 2003

कर्नल बलदेव सिंह (आईसी-33054), आर्टी--01 नवम्बर 2003

कर्नल टी पी शुक्ला (आईसी-33058), इन्फैन्ट्री--02 नवम्बर 2003

कर्नल रविन्दर सिंह (आईसी-33070), ए एस सी--04 नवम्बर 2003

कर्नल पी एस चरक (आईसी-33076), सी आई एच--05 नवम्बर 2003

कर्नल सी एम शर्मा (आईसी-33085), आर्टी--06 नवम्बर 2003

कर्नल पी एस बोरा (आईसी-33104), इन्ट--07 नवम्बर 2003

कर्नल राम दर्शन (आईसी-33126), ए एस सी--08 नवम्बर 2003

कर्नल पी एस सिसोदिया (आईसी-33135), सिख लाई--09 नवम्बर 2003

कर्नल ए के मनन (आईसी-27943), इंजीनियर्स--10 नवम्बर 2003



कर्नल आई एस गरवल (आईसी-27948), सिख--11 नवम्बर 2003  
कर्नल जे एस गोसाल (आईसी-27953), 3 जी आर--12 नवम्बर 2003

कर्नल आर के यादव (आईसी-27955), 18 कैव--13 नवम्बर 2003  
कर्नल जी एस मालही (आईसी-27956), 7 कैव--01 दिसम्बर 2003  
कर्नल ए के गर्ग (आईसी-27958), आर्टी--02 दिसम्बर 2003  
कर्नल के वी एस ललौत्रा (आईसी-27962), 11 जी आर--03 दिसम्बर 2003

कर्नल आर के शर्मा (आईसी-27963), आर्टी--04 दिसम्बर 2003  
कर्नल बी एस पी एस भल्ला (आईसी-27965), 16 कैव--05 दिसम्बर 2003

कर्नल एम एस गिल (आईसी-27964), आर्टी--01 फरवरी 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 दिसम्बर 2003 से दी जाएगी।

कर्नल एस पी सिंह (आईसी-27967), आर्टी (जीसी)--07 दिसम्बर 2003

कर्नल एस के भारद्वाज (आईसी-27968), ग्रिनेडियर--08 दिसम्बर 2003

कर्नल राजेश पन्त, वी एस एम (आईसी-27969), सिग्नल्स--01 मार्च 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 दिसम्बर 2003 से दी जाएगी।

कर्नल संजीव लूम्बा (आईसी-27971), 63 कैव--10 दिसम्बर 2003

कर्नल ज्ञान भूषण (आईसी-27972), महार--11 दिसम्बर 2003

कर्नल वी पी कश्यप (आईसी-27974), मद्रास--12 दिसम्बर 2003

कर्नल ए एस चांद (आईसी-27978), इंजीनियर्स--13 दिसम्बर 2003

कर्नल जे एस बाजवा (आईसी-27979), कुमाऊं--14 दिसम्बर 2003

कर्नल आर पन्डालाल (आईसी-27980), राजपूत--15 दिसम्बर 2003

कर्नल पी शर्मा (आईसी-27981), जाट--21 दिसम्बर 2003

कर्नल सिबल मुनीश (आईसी-27990), राजरिफ--23 दिसम्बर 2003

कर्नल पी के विज (आईसी-27991), असम--25 दिसम्बर 2003

कर्नल पी एस भल्ला (आईसी-27994), 64 कैव--01 जनवरी 2004

कर्नल ए के बाली (आईसी-27997), आर्टी--02 जनवरी 2004

कर्नल एम जी बोडवाडकर (आईसी-30001), एडी आर्टी--03 जनवरी 2004

कर्नल डी एस ठाकुर (आईसी-30010), एम एल आई--04 जनवरी 2004

कर्नल ए एस नेगी, एस एम (आईसी-30011), इन्फैन्ट्री--05 जनवरी 2004

कर्नल कनवल बत्रा (आईसी-30013), एडी आर्टी--06 जनवरी 2004

कर्नल अनिल चैत (आईसी-30016), 73 ए आर--07 जनवरी 2004

कर्नल ओ पी गुरूंग (आईसी-30021), महार--08 जनवरी 2004

कर्नल सुबोध कौल (आईसी-30033), बिहार--10 जनवरी 2004

कर्नल के एस सेठी (आईसी-30048), पंजाब--11 जनवरी 2004

कर्नल राजिन्दर सिंह (आईसी-30051), बिहार--12 जनवरी 2004

कर्नल बी एस दौलता (आईसी-30052), डोगरा--13 जनवरी 2004

कर्नल आर के कालरा (आईसी-30053), एडी आर्टी--14 जनवरी 2004

कर्नल आर एस लंगेरा (आईसी-30054), 5 जी आर--15 जनवरी 2004

कर्नल दविन्दर राठी (आईसी-30057), आर्टी--16 जनवरी 2004

कर्नल एस के कौशिक (आईसी-30061), आर्टी--17 जनवरी 2004

कर्नल एस पी तनवर (आईसी-30068), आर्टी--18 जनवरी 2004

कर्नल गुनमय दास (आईसी-30071), महार--19 जनवरी 2004

कर्नल आर के भोंसले (आईसी-30074), जैक रिफ--20 जनवरी 2004

कर्नल एस सी नायर (आईसी-30076), राजपूत--21 जनवरी 2004

कर्नल विपिन नौटियाल (आईसी-30084), गार्डस--01 फरवरी 2004

कर्नल जे डी एस रावत (आईसी-30085), इन्ट--02 फरवरी 2004

कर्नल आर के शर्मा (आईसी-30087), डोगरा--03 फरवरी 2004

कर्नल अब्राहम टी सी (आईसी-30088), आर्टी--04 फरवरी 2004

कर्नल नरेन्द्र सिंह (आईसी-30089), मराठा लाई--05 फरवरी 2004

कर्नल डी एस सी वर्मा (आईसी-30092), ग्रिनेडियर--06 फरवरी 2004

कर्नल डी एस अहलावत (आईसी-30094), जाट--07 फरवरी 2004

कर्नल जे एस कटरिया (आईसी-30098), राजरिफ--08 फरवरी 2004

कर्नल ए के गुप्ते (आईसी-30104), मराठा लाई--16 फरवरी 2004

कर्नल ए एस मिन्हास (आईसी-30108), गार्डस--01 मार्च 2004

कर्नल वी के तिवारी (आईसी-30109), आर्टी--02 मार्च 2004

कर्नल ए के शर्मा (आईसी-30113), ए डी आर्टी--03 मार्च 2004

कर्नल टी एस खेरा (आईसी-30117), 81 ए आर--04 मार्च 2004

कर्नल ए मुखर्जी (आईसी-30118), आर्टी--05 मार्च 2004

कर्नल अशोक सिरौही (आईसी-30123), 65 ए आर--06 मार्च 2004

कर्नल एस पी कोच्चर (आईसी-30137), सिग्नल्स--01 मई 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 मार्च 2004 से दी जाएगी।

कर्नल ए के चढढा (आईसी-30143), सिग्नल्स--01 मई 2004 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 मार्च 2004 से दी जाएगी।

कर्नल दीपक खुराना (आईसी-30148), राजरिफ--01 अप्रैल 2004

कर्नल आर कपूर, एस सी (आईसी-30176), 4 जी आर--02 अप्रैल 2004

कर्नल एन एस कपूर (आईसी-30183), गढ़वाल रिफ--03 अप्रैल 2004

कर्नल आर एन भट्टाचार्य (आईसी-30184), राजपूत --04 अप्रैल 2004

कर्नल रविशंकर (आईसी-30210), ए ओ सी--05 अप्रैल 2004

कर्नल एच जे सिंह, एस सी, वी एस एम (आईसी-30216), ए एस सी--06 अप्रैल 2004

कर्नल आर भारद्वाज (आईसी-31551), इंजीनियर्स--07 अप्रैल 2004

कर्नल पी एस धत (आईसी-31552), इंजीनियर्स--08 अप्रैल 2004

कर्नल राहुल कुमार (आईसी-31562), इंजीनियर्स--09 अप्रैल 2004

कर्नल अंजुम साहब (आईसी-31568), सिग्नल्स--11 अप्रैल 2004

कर्नल नैकार सिद्धाप्पा (आईसी-31574), सिग्नल्स--12 अप्रैल 2004

कर्नल के गजारिया (आईसी-31593), इंजीनियर्स--13 अप्रैल 2004

कर्नल आर एस चौहान (आईसी-33483), एवीएन--14 अप्रैल 2004

कर्नल आई एस पिलखवाल (आईसी-33551), आर्टी--15 अप्रैल 2004

एम. मरियप्पन  
संयुक्त निदेशक/एम एस (एक्स)

## MINISTRY OF DEFENCE

## (FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 11th February 2006

No. 62, dated 4th January 2006.—The President is pleased to appoint Shri K.V.R. Murthy, IDAS (1992) who has been working in this division as Deputy Financial Adviser, as Director with effect from 15.12.2005 to 18.04.2007 or until further orders, whichever event takes place earlier.

D.K. PANDEY  
Director (Fin/Estt.)

## NAVY BRANCH

## INTEGRATED HQrs

No. 63, dated 4th January 2006.—The President is pleased to appoint Shri Pradeep Sharma, Private Secretary of AFHQ Stenographers' Service as principal Private Secretary (Group 'A' Pay Scale Rs. 10,000-15,200/-) on ad-hoc basis w.e.f. 13.10.05 for a period upto 31.12.2005 or till availability of regular panel for promotion or till he retires, whichever is earlier.

2. The ad-hoc promotion shall be operated on purely temporary basis and can be terminated on administrative grounds without issuing any prior notice to this effect. The above officer so granted ad-hoc promotion shall have no claim for regular promotion/appointment on the basis of ad-hoc promotion granted now. The period of such appointment shall not count towards his seniority in the grade of PPS.

SHANKAR SINGH  
Dy. Chief Administrative Officer (A)

No. 64, dated 4th January 2006.—The President is pleased to continue the appointment of Shri S.P. Kapoor Grade 'C' Stenographer borne on the CSS Cadre of Ministry of Defence as Private Secretary on ad-hoc basis in this Division for a further period from 1.10.2005 to 31.12.2005 or until further orders whichever is earlier.

D.K. PANDEY  
Director (Fin/Estt.)

No. 65, dated 4th January 2006.—The President is pleased to extend the appointment of the following Personal Assistants of AFHQ Stenographers Service as Private Secretary (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on temporary promotion basis beyond 01.07.2005 for a period upto 31.12.2005 or till persons from the Select List become available of till the below mentioned persons retire from service, whichever is earlier:—

- (a) Shri SK Arora
- (b) Smt. Mohini Agrawal
- (c) Smt. Santosh Tanwar
- (d) Smt. Chitra Dutta
- (e) Shri Vinay Grover

- (f) Shri GS Jassal
- (g) Smt. CK Dhillon
- (h) Smt. Manju Sahni
- (i) Smt. Kiran Kalra
- (j) Smt. Nirmal

2. Appointment of the above mentioned officers as Private Secretary is made under AFHQ Stenographers Service Regulation, 2004 on the conditions mentioned below:—

(a) The appointment is purely on temporary basis and can be terminated without notice for administrative reasons.

(b) They will not have any claim for appointment to the above post on regular basis nor will their service rendered on temporary basis reckon for seniority.

SHANKAR SINGH  
Dy Chief Administrative Officer (A)

## NATIONAL CADET CORPS

No. 66, dated 10th January 2006.—The under mentioned Vice Chancellors are granted the honorary rank of Colonel in the National Cadet Corps and are appointed as Colonel Commandant of their respective University as shown against their name for the period of their appointment as Vice Chancellor of the said University.

Name of the Vice Chancellor	Name of the University	Date of appointment as Vice Chancellors
1	2	3
Dr. (Smt) Saroja Prabhakaran Vice Chancellor	Avinashilingam Deemed University Coimbatore Tamilnadu	14 Sep 2004
Dr. Jagmohan Singh Vice Chancellor	Dr. YS Parmar University of Horticulture & Forestry Nauni, Solan, (HP)	06 Apr 2005
Dr. DS Rathore Vice Chancellor	CSK Himachal Pradesh Krishi Vishavavidyalaya Palampur, Distt Kangra, (HP)	02 May 2005
Prof (Dr.) S Sivasubramanian Vice Chancellor	Bharathiar University Coimbatore, Tamilnadu	09 Jul 2003
Dr. Keshava Prasad Singh Vice Chancellor	BN Mandal University Madhepura, Bihar	03 Aug 2004
Maj Gen SN Mukherjee (Retd.) Vice Chancellor	Lakshmbai National Institute of Physical Education, Gwalior	22 Mar 2005
Dr. SB Singh Vice Chancellor	Dr. Ram Manhoar Lohia Avadh University Faizabad (UP)	13 Sep 2004
Dr. Laxman Chaturvedi Vice Chancellor	Pt. Ravi Shankar University Raipur (CG)	13 May 2005

JATINDER SINGH  
Brig  
Dy Dir Gen (MS)

## ARMY BRANCH

No. 67, dated 5th January 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY  
ARMY EDUCATIONAL CORPS  
To be Sub

Nb Sub Shyam Swarup Gupta (JC-802837A), 16th Apr 2005

Nb Sub Virendra Singh (JC-802841H), 02nd Sep 2004\$

\$(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kulwant Singh (JC-802832F), 01st Mat 2005@

@(Granted seniority in the rank of Sub wef 24 Nov 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Gianeshwar Dharwal (JC-802718K), 03rd May 2005#

#(Granted seniority in the rank of Sub wef 07 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Kuldeep Kumar (JC-802758L), 01st Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 31 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Nb Sub N Raj Kumar (JC-802872H), 01 Jan 2005

Nb Sub Krishna Deo (JC-802880F), 01 Jan 2005

Nb Sub Vinod Singh Bhadoria (JC-802895K), 19 Feb 2005=

=(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Satyabir Singh (JC-802900K), 01 Feb 2005

Nb Sub Satyabir (JC-802906L), 01 Mar 2005

Nb Sub Shamsher Chand Thakur (JC-802908W), 01 Mar 2005

Nb Sub Kailash Yadava (JC-802910N), 01 Mar 2005

Nb Sub Girish Chandra Dobhal (JC-802912Y), 04 Mar 2005+

+(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Anil Chandra (JC-802913F), 01 Apr 2005

Nb Sub Manoj Kumar Dwivedi (JC-802915M), 02 Apr 2005=

Nb Sub Arvinda Kumar (JC-802916P), 02 Apr 2005=

Nb Sub Adhir Kumar (JC-802917X), 01 Apr 2005

Nb Sub Pramoda Kumar Sahu (JC-802918A), 13 Apr 2005=

=(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Darshan Singh Bandral (JC-802919H), 01 Apr 2005

Nb Sub/Clk Rupak Ranjan Das (JC-803173K), 01 Apr 2005

Nb Sub Ramesh Rana (JC-802925W), 01 May 2005

Nb Sub Shailendra Kumar Gaur (JC-802928K), 02 May 2005%

Nb Sub Satbir Singh Saharawat (JC-802931K), 03 May 2005%

%(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2005 without effect on pay and allowances)

Nb Sub Rakesh Kumar (JC-802934X), 15 Jun 2005-

Nb Sub Sher Singh Yadav (JC-802939W), 16 Jun 2005-

-(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

V. K. KAPOOR  
Under Secy.

No. 68, dated 6th January 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

## REGULAR ARMY

## INFANTRY

## THE PARACHUTE REGIMENT

## To be Nb Sub

Hav Khedkar Jairaj Shriram (No 2784959L now JC-412988Y), 13 Oct 2004\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Aug 2004 without effect on pay & allowances)

Hav Malappa, SM (No 13616638N now JC-412989F), 02 Jul 2005

Hav S Dhanabal (No 13617308F now JC-412990W), 02 Jul 2005)

Hav Salunkhe Arun Nana (No 13617587X now JC-412991Y), 02 Jul 2005

Hav Kunwar Singh (No 13614547L now JC-412992F), 06 Sep 2005

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay & allowances)

Hav Ashish Thapa (No 13615208X now JC-412993K), 26 Sep 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay & allowances)

Hav Prasant Kumar Dash (No 13615977A now JC-412994M), 24 Sep 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay & allowances)

Hav Moti Chand (No 13616106N now JC-412995P), 24 Sep 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay & allowances)

Hav Krishan Pal Singh Tomar (No 13616232A now JC-412996X), 01 Sep 2005

Hav Ashok Kumar (No 13616944H now JC-412997A), 24 Sep 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay & allowances)

Hav Girand Singh (No 13617218A now JC-412998H), 24 Sep 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay & allowances)

8 GR

To be Nb Sub (GD)

Hav Ram Bahadur Shrestha (No 5750446M now JC-623634A), 01 Aug 2005

Hav Sib Lal Thapa (No 5750513M now JC-623635H), 01 Aug 2005

Hav Maita Singh Gurung (No 5750433P now JC-623636L), 01 Aug 2005

Hav Yam Bahadur Thapa (No 5750514P now JC-623637N), 13 Sep 2005

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay & allowances)

Hav Resham Lal Gurung (No 5751477Y now JC-623638W), 07 Sep 2005

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2005 without effect on pay & allowances)

Hav Man Bahadur Ale (No 5752610H now JC-623639Y), 1 Sep 2005

To be Nb Sub (Clk)/(GD)

Hav/Clk Kiran Kumar Chhetri (No 5750199K now JC-623628M), 1 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2003 without effect on pay & allowances)

Hav Min Bahadur Pun (No 5750922A now JC-623629P), 9 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2004 without effect on pay & allowances)

Hav Pahal Singh Ale (No 5750959F now JC-623630K), 01 Jun 2005

Hav Gau Bahadur Pun (No 5751685N now JC-623631M), 01 Jul 2005

Hav Ram Bahadur Thapa (No 5749821A now JC-623632P), 12 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay & allowances)

Hav Naba Raj Ghale (No 5751652H now JC-623633X), 09 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay & allowances)

JAK RIF

To be Nb Sub (GD)

Hav Prem Kumar Gurung (No 13748408H now JC-580138H), 17 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 08 Mar 2005)

Hav Jasbir Singh (No 13752068H now JC-580139L), 04 Mar 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Apr 2005)

Hav Pritam Kumar (No 13747599W now JC-580140A), 16 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 21 Apr 2005)

Hav Om Prakash (No 13746388F now JC-580141H), 16 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 21 Apr 2005)

Hav Darshan Lal (No 13746427P now JC-580142L), 17 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 May 2005)

Hav Daljeet Singh (No 13749288F now JC-580143N), 17 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2005)

Hav Sarv Dayal Singh (No 13747462K now JC-580144W), 03 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 10 Jun 2005)

Hav Rashpal Singh (No 13747369H now JC-580145Y), 16 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2005)

Hav Ajmer Singh (No 13747620N now JC-580146F), 17 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 04 Jul 2005)

Hav Prakash Chand (No 13747714L now JC-580147K), 17 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2005)

Hav Manohar Lal (No 13748695X now JC-580148M), 27 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2005)

Hav Sher Singh (No 13749101K now JC-580149P), 21 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2005)

Hav Kesh Bahadur Chhetri (No 13747418A now JC-580150K), 01 Sep 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 03 Aug 2005)

Hav Thoru Ram (No 13748745X now JC-580156L), 01 Sep 2005

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav Clk Harish Chandra Singh Bisht (No 13750502L now JC-580151M), 01 Sep 2005

Hav Clk Bhawesh Kumar Thakur (No 13750499W now JC-580152P), 01 Sep 2005

Hav Clk Mani Ram Thakur (No 13749850A now JC-580153X), 01 Sep 2005

Hav Clk MD Mustaqim Alam (No 13750037K now JC-580154A), 01 Sep 2005

Hav Clk Sarwan Singh Chouhan (No 13750503N now JC-580155H), 01 Sep 2005

To be Nb Sub (GD)

Hav Bachan Dass (No 13747586Y now JC-580118P), 25 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2005)

Hav Mohan Lal (No 13747580X now JC-580119X), 24 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2005)

Hav Balkar Singh (No 13749652P now JC-580120M), 24 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2005)

Hav Devinder Singh (No 13747965P now JC-580121P), 04 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2005)

Hav Ambar Tamang (No 13747381K now JC-580122X), 28 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 05 Jun 2005)

Hav Madan Lal Banyal (No 13748865W now JC-580123A), 01 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 09 Jun 2005)

Hav Harmesh Singh (No 13748399M now JC-580124H), 25 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 18 Jun 2005)

Hav Dev Raj (No 13748754Y now JC-580126N), 01 Jul 2005

Hav Kapoor Singh (No 13748431W now JC-580127W), 25 Jul 2005

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2005)

Hav Yograj Sharma (No 13748730P now JC-580128Y), 24 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2005)

Hav Labh Singh (No 13748741F now JC-580129F), 24 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2005)

Hav Subhash Chander (No 13747985H now JC-580130W), 28 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2005)

Hav Tilak Raj (No 13749710N now JC-580131Y), 22 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2005)

Hav Harbans Lal (No 13749017K now JC-580132F), 01 Jul 2005

Hav Doult Ram (No 13749024A now JC-580133K), 01 Jul 2005

Hav Irshad Khan (No 13749861M now JC-580134M),  
01 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2005)

Hav Raju Mall (No 13748409L now JC-580135P),  
18 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Aug 2005)

Hav Balkar Singh (No 13750336H now JC-580136X),  
01 Aug 2005

Hav Balbir Singh (No 3383349P now JC-580137A),  
01 Aug 2005

To be Naib Subedar Clk (GD)

Hav Clk Ganesh Prasad (No 13749740L now JC-580125L), 01 Jul 2005

To be Nb Sub (GD)

Hav Gharu Ram (No 13746153P now JC-580092L),  
01 Jan 2005

Hav Pritam Gurung (No 13747413F now JC-580093N),  
02 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2005)

Hav Narotam Singh (No 13747931F now JC-580094W),  
20 Feb 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Feb 2005)

Hav Sultan Singh (No 13747366P now JC-580095Y),  
24 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 02 Apr 2005)

Hav Madan Lal (No 13747558M now JC-580096F),  
27 May 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 May 2005)

Hav Vijay Kumar (No 13747809L now JC-580097K),  
03 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 May 2005)

Hav Satish Kumar (No 13748261X now JC-580098M),  
03 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 May 2005)

Hav Mahan Singh (No 13748352F now JC-580099P),  
03 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 May 2005)

Hav Ashok Kumar (No 13748536A now JC-580100Y),  
29 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 May 2005)

Hav Raj Kumar (No 13748031K now JC-580101F),  
18 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 May 2005)

Hav Gurbachan Singh (No 13747248F now JC-580102K),  
19 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 03 May 2005)

Hav Romesh Chander (No 13747464P now JC-580103M),  
22 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 20 May 2005)

Hav Bhag Singh (No 13746772H now JC-580104P),  
01 Jun 2005

Hav Gursinder Singh (No 13752111Y now JC-580105X),  
05 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2005)

Hav Anil Singh (No 13748401Y now JC-580106A),  
18 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2005)

Hav Yougal Kishore (No 13748405P now JC-580107H),  
18 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2005)

Hav Bahadar Singh Sombria (No 13747658X now JC-580108L), 07 Jun 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jun 2005)

Hav Puran Chand (No 13748242A now JC-580109N),  
01 Jun 2005

Hav Mohinder Singh (No 13747710P now JC-580114Y),  
01 Jul 2005

Hav Manohar Lal (No 13747713H now JC-580115F),  
01 Jul 2005

Hav Ratten Lal (No 13749059W now JC-580116K),  
13 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jul 2005)

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav Clk Om Prakash (No 13749748X now JC-580110H),  
01 Jul 2005

Hav Clk Mohinder Singh (No 13749810Y now JC-580111L),  
01 Jul 2005

Hav Clk Mohan Chand (No 13750043X now JC-580112N),  
01 Jul 2005

Hav Clk Brjesh Kumar (No 13750361F now JC-580113W),  
01 Jul 2005

#### THE MARATHA LI

To be Nb Sub

Hav Patil Krishnat Ganapati (No 2779361W now JC-459559H), 07 Sep 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 Nov 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Gawali Janardhan Kakaji (No 2785580N now JC-459560X), 31 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 Dec 2004 without effect on pay and allowances)

Hav Shrikant Ramachandra Sutar (No 2779355H now JC-459561A), 22 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
16 May 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Kadam Santosh Rambhau (No 2786264F now JC-459562H), 06 Jul 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Gurav Ashok Maruti (No 2779447P now JC-459563L), 01 Oct 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
12 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Jadhav Chandrakant Ramchandra (No 2784031F now JC-459564N), 06 Sep 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
06 Aug 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Patil Jayavant Vyanku (No 2787019L now JC-459565W), 24 Sep 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
07 Aug 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Khairner Jivaraj Dasharath (No 2783626M now JC-459566Y), 19 Sep 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 Sep 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Datta Gawas (No 2785300P now JC-459567F),  
05 Sep 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 Sep 2005 without effect on pay and allowances)

#### THE MADRAS REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Ashok Kumar P (No 2589849W now JC-439645M), 16  
Aug 2005

Hav D Kanagarajan (No 2589345H now JC-439646P), 16  
Aug 2005

Hav Seenivasakapperumal V (No 2592071N now JC-439647X), 16 Aug 2005

Hav Ganjikuntla CH Pullaiah (No 2592763H now JC-439648A), 16 Aug 2005

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Vimal Kumar B (No 2589080K now JC-439609F), 5  
Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 Aug 2005 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk) Dharambir Singh (No 2589112F now JC-439610W), 1 Aug 2005

Hav (Clk) Kamal Singh (No 2589077K now JC-439633X), 1 Aug 2005

To be Nb Sub

Hav M Periyaswamy (No 2590682K now JC-439637N),  
27 Apr 2005

Hav Sunil KR (No 2598687X now JC-439630K), 1 Jun  
2005

Hav V Murugesan (No 2585917F now JC-439639Y), 21 Sep  
2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
01 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav V Narasimha Reddy (No 2589048P now JC-439640N), 22 Sep 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
10 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav M Alagumalai (No 2589296L now JC-439642Y),  
21 Sep 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
24 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav A Sebastian (No 2585039W now JC-439634A),  
19 Jul 2005

Hav Pasunoori Sathiaiah (No 2589685L now JC-439635H), 01 Aug 2005

Hav Vinod Kumar C (No 2588626M now JC-439629P),  
22 Dec 2004

Hav Balraj S (No 2590650F now JC-439618H),  
16 Feb 2005

Hav S Vembadiyan (No 2592628P now JC-439638W),  
15 Sep 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
27 Apr 2005 without effect on pay and allowances)



Hav Vikraman PK (No 2585956A now JC-439619L),  
01 Jun 2005

Hav Vijaya Kumar K (No 2587270X now JC-439622L),  
17 Aug 2005\*

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub with effect from  
11 Jun 2005 without effect on pay and allowances)

Hav Ramakrishnan P (No 2593581F now JC-439631M),  
01 Jun 2005

Hav Wilson TV (No 2590593L now JC-439632P),  
01 Jul 2005

#### LADAKH SCOUTS

To be Nb Sub (GD)

Hav Tashi Wangchok (No 9922695X now JC-588382X), 15  
May 2005/01 Dec 2005@

Hav Chhewang Rigzin (No 9923330P now JC-588383A),  
27 Apr 2005/01 Mar 2005@

Hav Chamba Chhoszang (No 9923332A now JC-588384H),  
02 May 2005/01 Mar 2005@

Hav Targias Chospell (No 9923327P now JC-588385L),  
27 Apr 2005/10 Mar 2005@

Hav Lakspar Tundup (No 9923334L now JC-588386N),  
27 Apr 2005/01 Mar 2005@

Hav Angchok Raftan (No 9923336W now JC-588387W),  
11 Jun 2005/23 May 2005@

Hav Tundup Dorjay (No 9923351L now JC-588390W),  
27 Jun 2005/01 Jun 2005@

Hav Raj Kumar (No 9923352N now JC-588391Y), 11  
Jun 2005/01 Jun 2005@

Hav Chhering Angchok (No 9923359X now JC-  
588392F), 14 Jun 2005/01 Jun 2005@

Hav Thukje Rinchen (No 9923361P now JC-588393K),  
11 Jun 2005/01 Jun 2005@

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav/Clk Kuldeep Singh Guleria (No 9923201P now JC-  
588388Y), 11 Jun 2005/26 May 2005@

Hav/Clk Sham Lal (No 9922849Y now JC-588389F), 11 Jun  
2005/01 Jun 2005@

@(Granted ante date seniority without effect on pay and  
allowances)

#### THE SIKH LI

To be Nb Sub (GD)

Hav Gopal Singh (No 4463558H now JC-509255K), 14 Jun  
2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect  
from 01 Oct 2004)

Hav Gurmit Singh (No 4466615X now JC-509256M),  
20 Mar 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect  
from 01 Dec 2004)

Hav Jagrant Singh (No 4460127Y now JC-509257P), 01 Apr  
2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect  
from 01 Jan 2005)

Hav Surinderpal Singh (No 4463623L now JC-509258X), 15  
Jun 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect  
from 01 Jan 2005)

Hav Gurcharan Singh (No 4463668L now JC-509259A), 16  
Jun 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect  
from 08 Feb 2005)

Hav Dara Singh (No 4469726A now JC-509260P), 15 Jun  
2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect  
from 01 Mar 2005)

Hav Labh Singh (No 4468623P now JC-509261X),  
15 Jun 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect  
from 01 Jun 2005)

Hav Nasib Singh (No 4465377K now JC-509263H), 30 Aug  
2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect  
from 04 Nov 2004)

Hav Harnaik Singh (No 4462465P now JC-509264L), 09 Aug  
2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect  
from 01 Dec 2004)

Hav Avtarpal Singh (No 4467509L now JC-509265N), 01 Jul  
2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect  
from 13 Jan 2005)

Hav Jarnail Singh (No 4467222N now JC-509267Y),  
25 Jun 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect  
from 01 Jun 2005)

Hav Harmesh Singh (No 4465555F now JC-509268F), 10  
Aug 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect  
from 30 Jun 2005)

Hav Hakam Singh (No 4462994F now JC-509269K),  
12 Aug 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect  
from 07 Jul 2005)

## To be Nb Sub (Clk) (GD)

Hav/Clk Ramesh Chandra Yadav (No 4465620W now JC-509266W), 06 Jul 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub/Clk (GD) with effect from 01 Mar 2005)

## THE RAJPUTANA RIFLES

## To be Nb Sub

Hav/Clk Naresh Kumar (No 2881550N now JC-469793M) 01 May 2005

Hav Mohd Lukman (No 2879647A now JC-469794P) 01 Jul 2005

Hav Chhitar Singh (No 2880262P now JC-469795X) 01 Jul 2005

Hav Attar Singh (No 2881281M now JC-469796A) 09 Sep 2005/S-15 Jul 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Jul 2005 without effect on pay & allces)

Hav Nizamuddin (No 2883182H now JC-469797H) 18 Jul 2005

Hav/Clk Jai Prakash Singh (No 2881556P now JC-469798L) 01 Oct 2005

Hav Santosh Singh Tomar (No 2881000L now JC-469786W) 17 Apr 2005/S-01 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2005 without effect on pay & allces)

Hav Sumier Singh (No 2881005K now JC-469787Y) 01 Jun 2005

Hav Raj Kumar (No 2882373L now JC-469788F) 01 Jun 2005

Hav Mahabir Singh, SM (No 2878785P now JC-469789K) 01 Aug 2005

Hav Deep Chand (No 2879109M now JC-469790Y) 01 Aug 2005

Hav Keshav Singh (No 2879968X now JC-469791F) 04 Aug 2005

Hav Sumcr Singh (No 2879894N now JC-469792K) 01 Sep 2005

## THE JAT REGIMENT

## To be Nb Sub

Hav Bhim Singh (No 3176219A now JC-489733Y) 01 Sep 2005

Hav Om Prakash (No 3177044P now JC-489734F) 01 Sep 2005

Hav Dilbag Singh (No 3176363A now JC-489735K) 01 Sep 2005

Hav Suresh Kumar Pangal (No 3177034L now JC-489736M) 01 Oct 2005

Hav Vijaya Kumar (No 3178991H now JC-489737P) 01 Oct 2005

Hav Parbhu Singh (No 3177878F now JC-489738X) 01 Nov 2005

## 4GR

## To be Nb Sub

Hav Gum Prasad Thapa (No 5345593X now JC-612614M) wef 17 Jun 2005@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Apr 2005)

Hav Krishna Bahadur Gurung (No 5345872H now JC-612615P) wef 01 Apr 2005

Hav Til Bahadur Thapa (No 5345347M now JC-612616X) wef 01 Apr 2005

Hav Nar Bahadur Thapa (No 5345962K now JC-612617A) wef 07 Jun 2005@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Apr 2005)

Hav Ram Bahadur Thapa (No 5345594A now JC-612618H) wef 17 May 2005@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 28 Apr 2005)

Hav Bhuwan Singh Thapa (No 5346003A now JC-612619L) wef 09 May 2005@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 28 Apr 2005)

Hav (Clk) Satya Ram Pal (No 5345314F now JC-612620A) wef 25 May 2005@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 May 2005)

Hav (Clk) Uma Shankar Bharati (No 5345351P now JC-612621H) wef 01 Jun 2005

Hav Yam Prasad Gurung (No 5345626X now JC-612622L) wef 06 Jun 2005@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Jun 2005)

Hav Ram Bahadur Gurung (No 5346018A now JC-612623N) wef 28 Jun 2005@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Jun 2005)

Hav Bhim Bahadur Pun (No 5345549N now JC-612624W) wef 09 Jun 2005@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Jun 2005)

Hav Krishna Bahadur Thapa (No 5345993F now JC-612625Y) wef 01 Jun 2005

Hav Gam Bir Jang Gurung (No 5346013X now JC-612626F)  
wef 01 Jun 2005

Hav Jyam Bahadur Thapa (No 5346038W now JC-612627K)  
wef 01 Jun 2005

Hav Krishna Bahadur Gurung (No 5346039Y now JC-612628M) wef 01 Jun 2005

Hav (Clk) Uday Kumar Singh (No 5345361Y now JC-612629P) wef 01 Jul 2005

Hav Nar Bhupal Gurung (No 5345810H now JC-612631M) wef 18 Jul 2005@

@(Gtd seniority without effect on pay & allces wef 01 Jul 2005)

Hav Niranjana Thapa (No 5345429P now JC-612632P) wef 01 Jul 2005

Hav (Clk) Ajeet Kumar Thakur (No 5345371M now JC-612633X) wef 01 Aug 2005

Hav Hem Bahadur Tamang (No 5345918A now JC-612634A) wef 08 Sep 2005@

@(Gtd seniority without effect on pay & allces wef 01 Aug 2005)

Hav Sher Bahadur Pun (No 5345922H now JC-612635H) wef 06 Aug 2005@

@(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Aug 2005)

Hav Harka Bahadur Shrish (No 5345901M now JC-612636L) wef 01 Aug 2005

Hav Ganesh Bahadur Gurung (No 5345928K now JC-612637N) wef 06 Aug 2005@

@(Gtd seniority without effect on pay & allces wef 01 Aug 2005)

Hav Arjun Gurung (No 5346069W now JC-612638W) wef 04 Aug 2005@

@(Gtd seniority without effect on pay & allces wef 01 Aug 2005)

Hav Jang Bahadur Thapa (No 5346386X now JC-612639Y) wef 04 Aug 2005@

@(Gtd seniority without effect on pay & allces wef 01 Aug 2005)

Hav Tek Bahadur Rana (No 5346049H now JC-612640N) wef 04 Aug 2005

Hav Gopal Bahadur Gurung (No 5346152N now JC-612641W) wef 04 Aug 2005

Hav Siddha Bahadur Thapa (No 5346164H now JC-612642Y) wef 04 Aug 2005

Hav Nanda Bahadur Gurung (No 5346180A now JC-612643F) wef 04 Aug 2005

Hav (Clk) Radhey Shyam (No 5345428M now JC-612644K) wef 01 Sep 2005

Hav (Clk) Mimkaji Shrestha (No 5344675N now JC-612645M) wef 01 Sep 2005

#### THE DOGRA REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Amin Chand (No 3988061W now JC-520174K),  
16 Apr 2005+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 7 Nov 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Ramesh Chand (No 3982409K now JC-520175M),  
01 Jul 2005+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 9 Nov 2004 without effect on pay and allowances.)

Hav Rajesh Kumar (No 3983812H now JC-520176P),  
13 Feb 2005

Hav Daljit Singh Chanjotira (No 3983083L now JC-520177X), 01 Apr 2005

Hav Rakesh Kumar Vaid (No 3994564X now JC-520178A), 19 Apr 2005

Hav Sher Singh Verma (No 3983084N now JC-520179H),  
01 May 2005

Hav Rakesh Singh (No 3985900X now JC-520180X),  
14 Oct 2005+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 4 May 2005 without effect on pay and allowances.)

Hav Dhian Singh (No 3983218F now JC-520181A),  
01 Jun 2005

Hav Gopal Singh (No 3983233W now JC-520182H),  
01 Jun 2005

Hav Sarv Singh (No 3987018H now JC-520183L),  
01 Jun 2005

Hav Mohan Lal (No 3983931Y now JC-520184N),  
05 Jun 2005

Hav Rattan Singh (No 3983948M now JC-520185W),  
07 Jun 2005

Hav Mohan Singh (No 3981692W now JC-520186Y),  
01 Jul 2005

Hav Ram Paul (No 3983151N now JC-520187F),  
01 Jul 2005

Hav Veer Abhimanyu Dadwal (No 3988985K now JC-520188K), 01 Jul 2005

Hav Surinder Singh (No 3985910F now JC-520189M),  
14 Sep 2005+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with  
effect from 20 July 2005 without effect on pay and  
allowances.)

Hav Ranjeet Singh (No 3984597P now JC-520190F),  
01 Aug 2005

Hav Sukhdev Singh (No 4358536Y now JC-520191K),  
01 Aug 2005

Hav Chuni Lal (No 3983573Y now JC-520192M),  
17 Sep 2005+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with  
effect from 01 Aug 2005 without effect on pay and  
allowances.)

Hav Deleep Trakroo (No 3986698F now JC-520193P),  
01 Aug 2005

Hav Des Paj Sharma (No 3984075Y now JC-520194X),  
09 Sep 2005+

+(Granted seniority in the rank of Nb Sub with  
effect from 05 Aug 2005 without effect on pay and  
allowances.)

Hav Sunil Kumar (No 3994907H now JC-520195A),  
08 Aug 2005

Hav Raj Kumar (No 3983252F now JC-520196H),  
01 Sep 2005

Hav Ashok Kumar (No 3983422A now JC-520197L),  
01 Sep 2005

Hav Pritam Sharma (No 3982847M now JC-520198N),  
01 Sep 2005

Hav Om Parkash (No 3983244H now JC-520199W),  
01 Sep 2005

Hav Hukam Chand (No 3985623X now JC-520200A),  
01 Sep 2005

Hav Mastan Singh (No 3985350A now JC-520201H),  
01 Sep 2005

Hav Basu Dev Singh (No 3989023M now JC-520202L),  
01 Sep 2005

#### To be Nb Sub/Clk

Hav/Clk Kamal Singh (No 3985333A now JC-520203N), 01  
Aug 2005

Hav/Clk Rajvir Sharma (No 3985335L now JC-520204W), 01  
Aug 2005

Hav/Clk Mohinder Singh (No 3985342F now JC-520205Y),  
01 Aug 2005

Hav/Clk Madan Lal (No 3985346X now JC-520206F), 01  
Sep 2005

Hav/Clk Nagendra Singh (No 3985672A now JC-520207K),  
01 Sep 2005

#### CORPS OF MILITARY POLICE

##### To be Naib Subedar

Hav Prabin Chandra Nath (No 7772160K now JC-819027N),  
21st May 2005#

Hav Mansidh Topno (No 7773480L now JC-819028W),  
16th May 2005#

Hav Uttam Kumar Pal (No 7773610H now JC-819029Y),  
02 May 2005#

Hav Naru Gopal Biswas (No 7773612N now  
JC-819030N), 2nd May 2005#

Hav Jabir Ali (No 7773607H now JC-819032Y), 13th  
Jun 2005&

Hav Dastagir Khan (No 7773581Y now JC-819033F),  
01st Jun 2005

Hav Achappa AA (No 7773583K now JC-819034K), 01st  
Jun 2005

Hav Shyam Singh (No 7773623A now JC-819035M),  
01st Jun 2005

Hav Arun Kumar Sahar (No 7773624H now  
JC-819036P), 01st Jun 2005

Hav Gopala Krishana Karnavar NG (No 7773589L now  
JC-819037X), 6th Jun 2005&

Hav Ram Bilas (No 7773642L now JC-819038A), 1st Jun  
2005

Hav M Rajendran (No 7773632F now JC-819039H), 1st Jun  
2005

Hav Rani Narayan Choubey (No 7773671A now  
JC-819040X), 1st Jun 2005

Hav Ashok Kumar Singh (No 7773673L now JC-819041A),  
1st Jun 2005

Hav Ram Dayal Singh (No 7773674N now JC-819042H),  
1st Jun 2005

Hav Balwinder Singh (No 7772300L now JC-819046Y),  
1st Jul 2005^^

Hav Raj Kumar (No 7773647K now JC-819047F), 1st  
Jul 2005

Hav Bijay Kumar Singh (No 7773679M now JC-819048K),  
1st Jul 2005

Hav Ram Prasad Mishra (No 7773680F now JC-819049M),  
6th Aug 2005%

Hav Mahesh Sharma (No 7773682M now JC-819050F),  
12st Jul 2005%

Hav Rameshwar Prasad Singh (No 7773614Y now JC-  
819051K), 9th Jul 2005%

Hav Gurmukh Singh (No 7773719H now JC-819052M),  
18th Jul 2005%

Hav Dalbir (No 7773720X now JC-819053P), 27th Jul  
2005%

Hav Pati Ram Verma (No 7773579F now JC-819054X), 25th  
Jul 2005%

Hav P Adimoolam (No 7772431W now JC-819055A), 8th  
Aug 2005%

Hav Mohan Ram Panwar (No 7773633K now JC-819056H) 6th Aug 2005%

Hav Binod Kumar Singh (No 7773664K now JC-819057L) 25th July 2005%

Hav Birendra Kumar (No 7773650K now JC-819058N) 15th Aug 2005%

Hav Devi Prasad Shukla (No 7773540P now JC-819059W) 26th July 2005%

Hav Kishun Dayal Rai (No 7773657N now JC-819060L) 22nd July 2005%

Hav Kushalappa GP (No 7773559N now JC-819061N) 25th July 2005%

Hav Birendra Prasad (No 7773655H now JC-819062W) 6th Aug 2005%

Hav Mahavir Prasad Raiya (No 7773686H now JC-819063Y) 1st Aug 2005%

Hav Sita Ram Dwivedi (No 7773693Y now JC-819064F) 14th Aug 2005%

Hav Shambhu Nath Ram (No 7772606N now JC-819066M) 2nd Aug 2005@

Hav Jasbir Singh (No 7773738N now JC-819067P) 1st Aug 2005

Hav Anant Vijay Singh (No 7773733P now JC-819068X) 4th Aug 2005@

Hav Dilip Chetry (No 7773775F now JC-819069A) 5th Aug 2005@

Hav Gunan Singh (No 7773715M now JC-819070P) 1st Aug 2005

Hav Jasbir Singh (No 7773711W now JC-819071X) 19th Aug 2005@

Hav Gaikwad Anand Dhondiba (No 7773788Y now JC-819072A) 1st Sep 2005

Hav R Kolanchiappan (No 7773742W now JC-819073H) 1st Sep 2005

##(Granted seniority with effect from 1st May 2005 without effect on pay and allowances).

&(Granted seniority with effect from 1st June 2005 without effect on pay and allowances).

^^^(Granted seniority with effect from 1st July 2004 without effect on pay and allowances).

%(Granted seniority with effect from 1st July 2005 without effect on pay and allowances).

@(Granted seniority with effect from 1st Aug 2005 without effect on pay and allowances).

To be Naib Subedar (Clerk/GD)

Hav Parimal Chandra Das (No 7773355K now JC-819031W) 1st Jun 2005

Hav Abanindra Nath Basak (No 7773356K now JC-819043L) 22nd Aug 2005%

Hav Chaman Lal (No 7773357M now JC-819044N) 15th Jul 2005%

Hav N Damodara Reddy (No 7773361P now JC-819045W) 5th Sep 2005%

Hav Yam Bahadur Chhetri (No 7773389P now JC-819065K) 1st Aug 2005

%(Granted seniority with effect from 1st July 2005 without effect on pay and allowances)

DIWAKAR  
Under Secy.

No. 69, dated 5 January 2006—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY  
CORPS OF ARMY AIR DEFENCE  
To be Nb Sub

BHM S Chandran (No. 15101454F now JC-299292X), 22 Jul 2005/04 Jun 2005\*

BHM KE Prasad (No. 14359946Y now JC-299293A), 15 Aug 2005/01 Jul 2005\*

BHM Haqiqat Singh (No. 14366685Y now JC-299294H), 01 Aug 2005/09 Jul 2005\*

RHM Sukhwinder Singh (No. 14358637X now JC-299295L), 12 Sep 2005/31 Jul 2005\*

RHM Sukhwant Singh (No. 14359098L now JC-299296N), 01 Aug 2005

RHM Joginder Pal (No. 14358308N now JC-299297W), 22 Aug 2005/01 Aug 2005\*

RHM Ramdhan Yadav (No. 14364977H now JC-299298Y), 01 Sep 2005

Hav Raj Kumar (No. 14359843A now JC-299299F), 01 Sep 2005

BHM Bopaiah MR (No. 14388862N now JC-299300L), 01 Sep 2005

Hav Khub Lal Prasad (No. 14359299K now JC-299301N), 05 Sep 2005/01 Sep 2005\*

BHM M Murugesan (No. 14363827A now JC-299302W), 10 Sep 2005/01 Sep 2005\*

BHM Gurmeet Singh (No. 14359254K now JC-299303Y), 15 Aug 2005/01 Jul 2005\*

RHM Bhanwar Singh (No. 14356611W now JC-299304F), 22 Sep 2005/01 Jul 2005\*

BHM Ramesh Kumar (No. 14356799W now JC-299305K), 22 Sep 2005/01 Jul 2005\*

BHM Matbar Yadav (No. 14358865M now JC-299306M), 22 Sep 2005/01 Jul 2005\*

Hav Chandran Athikka (No. 14490734K now JC-299307P), 27 Aug 2005/02 Jul 2005\*

BHM M Munirajulu (No. 14369845Y now JC-299308X), 22 Sep 2005/20 Jul 2005\*

Hav Dilip Kumar (No. 14362336X now JC-299309A), 01 Sep 2005

Hav Madan Lal (No. 14359788P now JC-299310P), 22 Sep 2005/02 Sep 2005\*

Hav Shanker Singh Shekhawat (No. 14472178W now JC-299311X), 21 Sep 2005/02 Sep 2005\*

RHM Avdesh Kumar (No. 14362693A now JC-299312A), 26 Sep 2005/09 Sep 2005\*

RHM Sompal Singh (No. 14354349A now JC-299313H), 01 Oct 2005/11 Sep 2005\*

BHM Sukhdev Singh (No. 14369739A now JC-299314L), 19 Sep 2005/13 Sep 2005\*

Hav Ravendra Singh (No. 14362768M now JC-299315N), 08 Oct 2005/25 Sep 2005\*

Hav Milan Dev Barna (No. 14356191F now JC-299316W), 06 Oct 2005/27 Sep 2005\*

BHM Balvinder Singh (No. 14358800Y now JC-299317Y), 22 Sep 2005/01 Jul 2005\*

BHM Vijay Kumar (No. 14366585N now JC-299318F), 22 Sep 2005/01 Jul 2005\*

Hav Yad Ram (No. 14367156Y now JC-299319K), 06 Oct 2005/15 Jul 2005\*

BHM Ram Naresh Singh (No. 14376778F now JC-299320Y), 01 Oct 2005/31 Jul 2005\*

BHM Shree Nath (No. 14485346H now JC-299321F), 21 Sep 2005/01 Aug 2005\*

Hav Rajendra Singh (No. 14359099N now JC-299322K), 08 Oct 2005/19 Aug 2005\*

Hav Harindran Kuruvala Veetil (No. 14366821K now JC-299323M), 19 Sep 2005/01 Sep 2005\*

Hav V Shivanand Eerappa Handur (No. 14356646M now JC-299324P), 15 Oct 2005/01 Sep 2005\*

RHM Surendran K (No. 14363291P now JC-299325X), 19 Oct 2005/01 Sep 2005\*

RHM Ranjit Singh (No. 14375100F now JC-299326A), 26 Sep 2005/05 Sep 2005\*

RHM Jasvir Singh (No. 14375855Y now JC-299327H), 10 Oct 2005/01 Oct 2005\*

\*(Gtd ante-date seniority wef)

M. M. Singh  
Under Secy.

REGULAR ARMY  
ARMY DENTAL CORPS  
(PERMANENT COMMISSION)  
Major to be Lt Col

DR-10453Y M Prakash, 28 Aug 2005

DR-10445A MK Rath, 25 Sep 2005

DR-10446H BP Panda, 30 Sep 2005

DR-10449W SK Rath, 04 Oct 2005

PARAMJIT SINGH  
Lt Gen  
DGDS

MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 71, Dated 10th January 2006—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION  
TO BE SUBSTANTIVE BRIGADIER

IC No., Rank, Name, Arm, D.O. Subs Brig

IC-32239 Col Nawab Singh Mech Inf, 05 Mar 2003

IC-29813 Col Tejinder Singh Vr CAOC, 01 Apr 2003

IC-25813 Col KD Pagnis Mech Inf, 02 Apr 2003

IC-25974 Col AK Arora Madras, 03 Apr 2003

IC-27228 Col MN Karnick Mech Inf, 04 Apr 2003

IC-27392 Col AK Wahie Sigs, 01 Apr 2003 with seniority from 05 April 2003 without effect on pay and pension

IC-27409 Col KPS Rana Jak Rif, 06 Apr 2003

IC-33015 Col E Jacob Kocheikkan 5 GR, 07 Apr 2003

IC-33032 Col SS Yadav Rajput, 08 Apr 2003

IC-33151 Col SC Upreti 4 GR, 21 Apr 2003

IC-33183 Col AMP Rao, SM Gren, 28 Apr 2003

IC-32844 Col Ram Pratap AD Arty, 01 May 2003

IC-32845 Col HS Nagra 4 GR, 02 May 2003

IC-32851 Col AM Sharma AD Arty, 03 May 2003

IC-32863 Col SS Sambyal Inf, 05 May 2003

IC-32865 Col RR Bali AD Arty, 06 May 2003

IC-32869 Col Parveen Paul AD Arty, 07 May 2003

IC-32876 Col OP Tomar Dogra, 08 May 2003

IC-32906 Col CH Dumasia AD Arty, 09 May 2003

IC-36381 Col BR Arya Sigs, 01 Jan 2004 with seniority from 10 May 2003 without effect on pay and pension

No. 70, dated 9th January 2006—The President is to make the following promotions (PC) under AI 37/78 as amended vide AI 10/02 :—

- IC-27601 Col SN Shah Engr, 11 May 2003
- IC-27603 Col Thomas V Jose EME, 01 Aug 2004 with seniority from 12 May 2003 without effect on pay and pension
- IC-27605 Col KA Rao 70AR, 13 May 2003
- IC-27606 Col AK Singh, VSM 7 CAV, 21 May 2003
- IC-27608 Col RK Hooda Guards, 22 May 2003
- IC-27611 Col KS Jaswal 71AR, 25 May 2003
- IC-27616 Col KS Nath Mech Inf, 01 Jun 2003
- IC-27619 Col Hardev Singh Mech Inf, 02 Jun 2003
- IC-27623 Col NS Malik Arty (GC), 03 Jun 2003
- IC-27625 Col Vivek Mehta 14 Horse, 04 Jun 2003
- IC-27628 Col AKS Sheoran 9 Horse, 05 Jun 2003
- IC-27632 Col Ashok Pillai Dogra, 06 Jun 2003
- IC-27633 Col KK Bhattacharya Jat, 07 Jun 2003
- IC-27635 Col RC Malik Garh Rif, 08 Jun 2003
- IC-27637 Col VK Vadhera Arty (GC), 09 Jun 2003
- IC-27638 Col Parvinder Singh SM, Arty 10 Jun 2003
- IC-27640 Col AS Parhar Sigs, 01 Feb 2004 with seniority from 11 Jun 2003 without effect on pay and pension
- IC-27641 Col SS Kadan 1 Horse, 12 Jun 2003
- IC-27643 Col Ranjit Prasad 9 GR, 01 Jul 2003
- IC-27645 Col Rameshwar Roy Jak Rif, 02 Jul 2003
- IC-27653 Col Mahinder Singh Engr, 03 Jul 2003
- IC-27658 Col KN Rishi AOC, 04 Jul 2003
- IC-27661 Col SS Pathania 67 AR, 05 Jul 2003
- IC-27667 Col Mohey Kamal ASC, 06 Jul 2003
- IC-27673 Col D Rajan Arty, 07 Jul 2003
- IC-27678 Col SS Rao 5 GR, 09 Jul 2003
- IC-27679 Col NC Marwah Kumaon, 23 Jul 2003
- IC-27682 Col UK Dhar Raj Rif, 01 Aug 2003
- IC-27686 Col KP Das Mahar, 02 Aug 2003
- IC-27701 Col DS Sidhu 17 Horse, 03 Aug 2003
- IC-27702 Col BPS Khari, VSM Para, 04 Aug 2003
- IC-27703 Col PK Saini Dogra, 05 Aug 2003
- IC-27708 Col AK Malik, VSM Jak LI, 06 Aug 2003
- IC-27714 Col FBDA Gama Rose Arty, 07 Aug 2003
- IC-27715 Col Somen Brahma AOC, 08 Aug 2003
- IC-27725 Col Ashok Sinha Engr, 09 Aug 2003
- IC-27731 Col SN Yargop 1 Gr, 10 Aug 2003
- IC-27744 Col JS Bedi Arty, 11 Aug 2003
- IC-27746 Col SS Bhatia Jak Rif, 12 Aug 2003
- IC-27757 Col Mathew Cherian Sigs, 01 Feb 2004 with seniority from 13 Aug 2003 without effect on pay and pension
- IC-27761 Col C Prakash Arty (GC), 14 Aug 2003
- IC-27767 Col Pradeep Bhalla AOC, 15 Aug 2003
- IC-27776 Col JC Sharma Gren, 01 Sep 2003
- IC-27778 Col Jagbir Singh Kundu Arty, 02 Sep 2003
- IC-27779 Col VK Patil 11 GR, 03 Sep 2003
- IC-27782 Col PG Kamath Madras, 04 Sep 2003
- IC-27793 Col Jatinder Singh Guards, 05 Sep 2003
- IC-27796 Col RS Nehra 45 Cav, 06 Sep 2003
- IC-27797 Col NV Nair Arty, 07 Sep 2003
- IC-27804 Col Sunil Dhawan Ad Arty, 08 Sep 2003
- IC-27827 Col VK Batura 4 Gr, 09 Sep 2003
- IC-27836 Col SS Chhikara Rajput, 10 Sep 2003
- IC-27841 Col Kanwaljit Singh Engr, 11 Sep 2003
- IC-27847 Col KK Dhingra EME, 01 Aug 2004 with seniority from 12 Sep 2003 without effect on pay and pension
- IC-27853 Col JS Mankikar Ad Arty, 13 Sep 2003
- IC-31223 Col SR Mazagaonkar Engrs, 14 Sep 2003
- IC-31231 Col AK Pathak Sigs, 01 Feb 2004 with seniority from 15 Sep 2003 without effect on pay and pension
- IC-31248 Col PK Bhatia Sigs, 01 Feb 2004 with seniority from 01 Oct 2003 without effect on pay and pension
- IC-31252 Col Somnath Mishra EME, 01 Mar 2004 with seniority from 02 Oct 2003 without effect on pay and pension
- IC-31274 Col MK Gupta Sigs, 01 Feb 2004 with seniority from 03 Oct 2003 without effect on pay and pension
- IC-33233 Col VK Sharma 8 Gr, 04 Oct 2003
- IC-33005 Col Rameshwar Dass Inf, 06 Oct 2003
- IC-33007 Col KS Pathania Mech Inf, 19 Mar 2004 with seniority from 07 Oct 2003 without effect on pay and pension
- IC-33012 Col Jasjit Singh, 3 CAV, 08 Oct 2003
- IC-33021 Col LS Thakur, Inf, 09 Oct 2003
- IC-33026 Col JR Sharma, Arty, 10 Oct 2003
- IC-33034 Col SP Menon, Arty, 11 Oct 2003
- IC-33042 Col PS Puri, Arty (GC), 12 Oct 2003
- IC-33052 Col SK Chaudhary, Int, 20 Oct 2003
- IC-33054 Col Baldev Singh Arty, 01 Nov 2003
- IC-33058 Col TP Shukla, Inf, 02 Nov 2003
- IC-33070 Col Ravinder Singh, ASC, 04 Nov 2003
- IC-33076 Col PS Charak, CIH, 05 Nov 2003
- IC-33085 Col CM Sharma, Arty, 06 Nov 2003
- IC-33101 Col PS Bora, Int, 07 Nov 2003

IC-33126 Col Ram Darshan, ASC, 08 Nov 2003  
 IC-33135 Col PS Sisodia, Sikh Li, 09 Nov 2003  
 IC-27943 Col AK Manan, Engr, 10 Nov 2003  
 IC-27948 Col IS Gakhal, Sikh, 11 Nov 2003  
 IC-27953 Col JS Gosal, 3GR, 12 Nov 2003  
 IC-27955 Col RK Yadav, 18 CAV, 13 Nov 2003  
 IC-27956 Col GS Malhi, 7 CAV, 01 Dec 2003  
 IC-27958 Col AK Garg, Arty, 02 Dec 2003  
 IC-27962 Col KVS Lalotra KVS, 11 GR, 03 Dec 2003  
 IC-27953 Col RK Sharma, Arty, 04 Dec 2003  
 IC-27965 Col SPS Bhalla, 16CAV, 05 Dec 2003  
 IC-27964 Col MS Gill, Arty, 01 Feb 2004 with seniority from 06 Dec 2003 without effect on pay and pension.  
 IC-27967 Col SP Singh, Arty(GC), 07 Dec 2003  
 IC-27968 Col SK Bhardwaj, Gren, 08 Dec 2003  
 IC-27969 Col Rajesh Pant, VSM, Sigs, 01 Mar 2004 with seniority from 09 Dec 2003 without effect on pay and pension  
 IC-27971 Col Sanjeev Loomba, 63 CAV, 10 Dec 2003.  
 IC-27972 Col Gyan Bhushan, Mahar, 11 Dec 2003  
 IC-27974 Col VP Kashyap, Madras, 12 Dec 2003  
 IC-27978 Col AS Chand, Engr, 13 Dec 2003  
 IC-27979 Col JS Bajwa, Kumaon, 14 Dec 2003  
 IC-27980 Col R Pandala, Rajput, 15 Dec 2003  
 IC-27981 Col P Sharma, Jat, 21 Dec 2003  
 IC-27990 Col Sibal Munish, Raj Rif, 23 Dec 2003  
 IC-27991 Col PK Vij, Assam, 25 Dec 2003  
 IC-27994 Col PS Bhalla, 64 CAV, 01 Jan 2004  
 IC-27997 Col AK Bali, Arty, 02 Jan 2004  
 IC-30001, Col MG Bodwadkar, Ad Arty, 03 Jan 2004  
 IC-30010 Col DS Thakur, MLI, 04 Jan 2004  
 IC-30011 Col AS Negi, SM, Inf, 05 Jan 2004  
 IC-30013 Col Kanwal Batra, AD Arty, 06 Jan 2004  
 IC-30016 Col Anil Chait 73 AR, 07 Jan 2004  
 IC-30021 Col OP Gurung, Mahar, 08 Jan 2004  
 IC-30033 Col Subodh Kaul, Bihar, 10 Jan 2004  
 IC-30048 Col KS Sethi, Punjab, 11 Jan 2004  
 IC-30051 Col Rajinder Singh, Bihar, 12 Jan 2004  
 IC-30052 Col BS Daulata, Dogra, 13 Jan 2004  
 IC-30053 Col RK Kalra, AD Arty, 14 Jan 2004  
 IC-30054 Col RS Langeh, 5 GR, 15 Jan 2004  
 IC-30057 Col Davinder Ratlii, Arty, 16 Jan 2004  
 IC-30061 Col SK Kaushik, Arty, 17 Jan 2004

IC-30068 Col SP Tanwar, Arty, 18 Jan 2004  
 IC-30071 Col Gunmoy Dass, Mahar, 19 Jan 2004  
 IC-30074 Col RK Bhonsle, JAK Rif, 20 Jan 2004  
 IC-30076 Col SC Nair, Rajput, 21 Jan 2004  
 IC-30084 Col Vipin Nautiyal, Guards, 01 Feb 2004  
 IC-30085 Col JDS Rawat, Int, 02 Feb 2004  
 IC-30087 Col RK Sharma, Dogra, 03 Feb 2004  
 IC-30088 Col Abraham TC, Arty, 04 Feb 2004  
 IC-30089 Col Narendra Singh, MLI, 05 Feb 2004  
 IC-30092 Col DSC Varma, Gren, 06 Feb 2004  
 IC-30094 Col DS Ahlawat, Jat, 07 Feb 2004  
 IC-30098 Col JS Kataria, Raj Rif, 08 Feb 2004  
 IC-30104 Col AK Gupte, MLI, 16 Feb 2004  
 IC-30108 Col AS Minhas, Guards, 01 Mar 2004  
 IC-30109 Col VK Tiwari, Arty, 02 Mar 2004  
 IC-30113 Col AK Sharma, Ad Arty, 03 Mar 2004  
 IC-30117 Col TS Khera, 81 AR, 04 Mar 2004  
 IC-30118 Col A Mukherjee, Arty, 05 Mar 2004  
 IC-30123 Col Ashok Sirohi, 65 AR, 06 Mar 2004  
 IC-30137 Col SP Kochhar, Sigs, 01 May 2004 with seniority from 08 Mar 2004 without effect on pay and pension.  
 IC-30143 Col AK Chadha, Sigs, 01 May 2004 with seniority from 05 Mar 2004 without effect on pay and pension  
 IC-30148 Col Deepak Khurana, Raj Rif, 01 Apr 2004  
 IC-30176 Col R Kapoor, SC, 4 GR, 02 Apr 2004  
 IC-30183 Col NS Kapur, Garh Rif, 03 Apr 2004  
 IC-30184 Col RN Bhattacharji, Rajput, 04 Apr 2004  
 IC-30210 Col Ravi Shankar, AOC, 05 Apr 2004  
 IC-30216 Col HJ Singh, SC, VSM, ASC, 06 Apr 2004  
 IC-31551 Col R Bhardwaj, Engrs, 07 Apr 2004  
 IC-31552 Col PS Dhatt, Engrs, 08 Apr 2004  
 IC-31562 Col Rahul Kumar, Engrs 09 Apr 2004  
 IC-31568 Col Anjum Shahab, Sigs, 11 Apr 2004  
 IC-31574 Col Naikar Siddhappa, Sigs, 12 Apr 2004  
 IC-31593 Col K Gajaria, Engrs, 13 Apr 2004  
 IC-33483 Col RS Chauhan, AVN, 14 Apr 2004  
 IC-33551 Col IS Pilkhal, Arty, 15 Apr 2004

N. MARIAPPAN  
 Jt. Dir/ MS(X)